









दिनांक Date: 26th June 2023

#### संदर्भ Ref.: नि.से. वि. ISD/101/2023-24

BSE Ltd.	National Stock Exchange of India Ltd.
BSE Listing Centre Scrip Code 532 477	NEAPS Scrip Symbol-UNIONBANK-EQ Security - UBI-AT/BB

महोदया Madam/महोदय Sir,

Subject: Submission of Newspaper Advertisement - Notice of Annual General Meeting of the Bank to be held through VC/OAVM.

Pursuant to Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copies of the newspaper advertisement of Notice of Annual General Meeting (AGM) of the Bank to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) and intimation of cut-off date published in following newspapers:-

Particulars	Newspaper	Language	Editions	Date of Publication
Notice of Annual General	Business Standard	English	All	22.06.2023
Meeting to be held through	Business Standard	Hindi	All	22.06.2023
VC/OAVM	The Free Press Journal	English	All	24.06.2023
	Navshakti	Marathi	Mumbai	24.06.2023

The same is also made available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in

Thanking you.

भवदीय Yours faithfully,

(सीएस एस. के. दाश CS S. K. Dash) कंपनी सचिव Company Secretary एफ़सीएस FCS - 4085

Encl: As above

😭 @unionbankofindia 🔰 @UnionBankTweets 🧿 UnionBankInsta 🖸 YouTube UnionBankofIndiaUtube in @unionbankofindia



#### CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR MUNICIPAL CORPORATION **Executive Engineer (Drainage)**

Address: Executive Engineer (Drainage) Municipal Corporation Chh. Sambhajinagar, Head Office: Town Hall Pin 431001 Tel No. (0240) 2333536-40 Fax No. (0240) 2331213 E-Tender Call AMC (for Help): Cell No. 9764999592

No. /AMC/Dy Eng/Drg-Ruilding/110/2023 Data : 10/06/2023

	o./Amorby.Engrbig-ballang/113/2023	Date . 13/00/2023
Sr. No.	Work Name	Last Date of Tender Submission
1	Kamal Talao Rejuvenation and Conservation Project (Amount Put to Tender Rs. 2,30,26,202/-)	10/07/2023

Note: 1. For the above started work detailed tender is available on web site www.mahatenders.gov.in Sd/-

> **Executive Engineer (Drainage Section)** Municipal Corporation Chh. Sambhajinaga



#### Generator **Technologies**

Cummins Generator Technologies India Private Limited (CIN U31101PN1991PTC061456)

Registered Office: Cummins India Office Campus, Tower A, 6th Floor, Survey No. 21, Balewadi, Pune 411 045, Maharashtra, India **Telephone**: 020 67067000 **Fax**: 020 67067015 Email: infocgtindia@cummins.com

NOTICE TO THE MEMBERS 32<sup>ND</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD **OVER VIDEO CONFERENCING** 

- 1. In compliance with the various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be conducted through Video Conferencing ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM") Facility on Wednesday, July 26, 2023, at 1:30 p.m. IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") to transact the business that will be set forth in the Notice calling the AGM.
- In compliance with the above circulars, notice of 32<sup>nd</sup> AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23, will be sent only to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s).
- Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/update their email addresses and mobile numbers with their relevant Depositories through the Depository Participants with whom they maintain their Demat accounts. Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address and mobile number with the Company, are requested to register/update the same by sending e-mail to infocqtindia@cummins.com or contact on phone number 020-6706 7000, along with folio number and attaching self-attested copy of PAN Card. After due verification, the Company will forward the meeting invite on the respective registered email addresses.
- All the Members are requested to register / update their email addresses within 3 days of issuance of this public notice and the AGM Notice will be sent to the Members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course
- In case of any queries, please contact Mr. Luv Tanwani on email id infocgtindia@cummins.com.

For Cummins GeneratorTechnologies India Private Limited R Shankararaman Whole-time Director DIN: 05241518

Pune June 22, 2023

#### **JAYANT AGRO-ORGANICS LIMITED**

CIN: 124100MH1992PLC066691 Regd. Off: 701, Tower "A", Peninsula Business Park at Marg. Lower Parel (West), Mumbai 400 013 Email: investors@jayantagro.com, Website: www.jayantagro.com Phone: 022-40271300, Fax: 022-40271399

Information regarding 31st Annual General Meeting to be held through Video Conference / Other Audio Visual Means

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, August 05, 2023 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules issued ereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR) read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020, 10/2022 dated 20th December, 2022 issued by the Ministry of Cornorate Affairs (MCA) and Circular Nos SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI/HO/CFO/PoD2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by SEBI, along with other applicable Circulars issued in this regard by the MCA and SEBI (collectively refer as 'Circulars') to transact the business that will be set forth in the Notice of the AGM.

The Annual Report of the Company for the financial year 2022-23 inclusive of Notice of the AGM will be sent electronically to the members whose Email IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) or Link Intime India Private Limited (Link Intime). Members may also note that notice of AGM and Annual Report will also available on Company's website at www.jayantagro.com and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies nagement and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI LODR and Secretarial Standards 2 issued by The Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes electronically (Remote e-Voting and e-Voting at the AGM) on all resolutions set forth in the AGM Notice. Detailed procedure of casting vote through e voting and remote e-voting will be provided in the Notice of the AGM

Divided, Book Closure and Record date

The Equity Dividend of Rs. 5/- per share as recommended by the Board of Directors of the Company for Financial Year 2022-23, if approved at the ensuing AGM, will be paid to eligible shareholders on or before 30 days from the date of AGM, subject to deduction of tax at source. In compliance with the applicable provisions of the Act and SEBI LODR, the Register of Members and the Share Transfer Books shall remain closed from Saturday, July 08, 2023 to Thursday, July 13, 2023 (both days inclusive) for AGM and payment of equity dividend. Dividend will be paid to the members, beneficial owners whose name appear in the register of members as at the end of the business hours on Friday, July 07, 2023 (record date).

The said dividend will be paid electronically to Members who have updated their bank details. Members whose bank account details are not updated with the Depository Participant(s) or Link Intime shall send a request for the same to their respective Depository Participant(s) (in case shares are in demat) or Link Intime (in case shares are in physical mode). In case of non-availability or non-updation of bank account details of Members, the Company will dispatch the dividend warrant /

demand drafts to such Members. Registration of Email and updating of KYC

Place: Mumbai

Date: June 21, 2023

In light of the Circulars and as required under the provisions of the Act, Members who have not registered/ updated their email address are requested to register/ update the same (i) in case of shares held in demat mode, as per the process advised by concerned Depository Participant's; and (ii) in case of shares held in physical mode, by emailing to the RTA in the prescribed form ISR-1 along with requisite forms at enotices@linkintime.co.in.

In compliance with the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March, 2023, the company had send letters to shareholders holding shares in physical form to furnish the KYC details which are not registered in their respective folios. The details with respect to updating the KYC and Bank details will be provided in the Notice of the AGM.

Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of Members w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to Members at the prescribed rates as may be applicable. In this regard, detailed communication is being sent to Members on their registered email IDs

This Notice is issued for the information and benefit of the Members of the Company in compliance with applicable MCA and SEBI circulars

For Jayant Agro-Organics Limited

Dinesh Kanadia Company Secretary & Compliance Officer Care*∃dge* 

CARE RATINGS LIMITED

(CIN: L67190MH1993PLC071691)

Regd. Office: 4<sup>th</sup> Floor, Godrej Coliseum, Somaiya Hospital Road,
Off Eastern Express Highway, Sion (East), Mumbai - 400 022. Tel: 022-67543456, dge.in Website: www.careedge.in

> NOTICE TO THE SHAREHOLDERS TRANSFER OF FOUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

Pursuant to Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time, the Company is required to transfer the shares, in respect of which Dividend has remained unclaimed and unpaid consequently for seven consecutive years or more, to the IEPF. In case of CARE Ratings Limited, the due date for transfer of such shares, in respect of which dividend has remained unclaimed and unpaid consequently for seven consecutive years or more is 12th September 2023. Pursuant to the said Rules, the Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e., KFin Technologies Limited, has already sent a specific communication to those shareholders whose shares have become due for transfer to IEPF. The Company has also uploaded the details of such shareholders on its website viz

Notice is further given to the shareholders to claim / encash the unpaid unclaimed dividend relating to financial year 2016-17 and onwards latest by 12th September 2023 so that the shares are not transferred to the IEPF. It may please be noted that if dividend remains unclaimed/unpaid as on the due date, the

Company will proceed to initiate action for transfer of shares of such On transfer of the dividend and the shares to IEPF, the shareholders may claim

the same by making an application to IEPF in Form IEPF-5 as per the Rules. The said Form is available on the website of IEPF viz. www.iepf.gov.in For any queries on the above matter. Shareholders are requested to contact the

Company's RTA as mentioned below: M/s KFin Technologies Ltd. Unit: CARE Ratings Limited (CARE) Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032, Telangana Tel.: 040-67162222, Toll Free No: 1800-3094-001 Email: einward.ris@kfintech.com

For CARE Ratings Limited

**¾** Himatsingka

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that Himatsingka Seide Limited ("Company") is seeking approval of

the Members of the Company by way of Postal Ballot through remote e-voting pursuant to

Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of The Companies

Act, 2013 ("Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time

being in force), read with the Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration)

Rules, 2014, ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"),

Secretarial Standard on General Meeting issued by The Institute of Company Secretaries

of India ("SS-2"), each as amended, and in accordance with the guidelines prescribed by

the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for conducting postal ballot process through

e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13,

2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated

December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022

dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 (collectively the "MCA Circulars"),

to transact the special businesses as set out hereunder by passing resolutions by way of

2. Approval for payment of Remuneration to Mr. D.K. Himatsingka as Executive Chairman.

3. Approval for Re-appointment of Mr. Shrikant Himatsingka designated as Executive Vice

5. Approval for Appointment of Mr. Shyam Powar as an Independent Director of the Company.

In compliance with the relevant circulars the Notice of Postal Ballot have been sent by e-mail

on Wednesday, June 21, 2023 to all the Members of the Company whose email address are

registered with the Company/ Depository Participant(s) as on Friday, June 16, 2023, i.e., the

As per the terms of the requirements specified in the MCA Circulars, Company has sent this

Notice only in electronic form, to those members whose e-mail addresses are registered with

the Company/Depositories. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot

Form and pre-paid business reply envelope is not being sent to the Members for this Postal

Ballot. The communication of the assent or dissent of the members would take place only

The Company has engaged the services of Kfin Technologies Limited ("Kfin") for the purpose

of providing remote e-voting facility to its members. The instructions for remote e-voting are

appended to this Notice. The Notice is available on the website of the Company

www.himatsingka.com and on the website of stock exchanges, i.e., BSE Limited and

National Stock Exchange of India Limited - www.bseindia.com and www.nseindia.com

respectively, and also on the website of Company's Registrar and Transfer Agent,

The remote e-voting will commence on Thursday, June 22, 2023 at 9:00 A.M and ends on

Friday, July 21, 2023 at 5:00 P.M. During this period, members of the Company

holding shares in physical or electronic form as on the Cut-off date i.e Friday, June 16, 2023

may caste vote electronically. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said

The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid-up equity

Members desiring to exercise their vote through the remote e-voting process are

requested to carefully read the instructions indicated in this Notice and record their assent

(FOR) or dissent (AGAINST) by following the procedure as stated in the Notes forming

part of the Notice for casting of votes by remote e-voting not later than 5.00 p.m. (IST) on

Members who have not updated their email address with the Company/ RTA are requested

to update their email address with their Depositary Participants (in case of Demat holding)

and by sending duly filled in Form ISR-1 alongwith the supporting documents to Kfin (in case

of Physical shares). Form ISR-1 can be downloaded from the Company's website

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders

and e-voting user manual for shareholders available at the download section of

The Board of Directors has appointed Mr. Prakash Kamath, Practising Company Secretary

(Membership No. A10807) failing him Mr. Pramod S, Practicing Company Secretary,

(Membership No: A36020), as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process in a fair

The Scrutinizer shall submit his report to the Chairman, or any other person authorised by

him, after scrutiny of votes cast. The results will be declared on or before Tuesday, July 25,

2023. Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's

website www.himatsingka.com and on the website of Kfin http://evoting.kfintech.com

and the same shall be communicated to the Stock Exchanges, where the equity shares of

www.himatsingka.com as well as from the Kfin Website investor.kfintech.com

http://evoting.kfintech.com or contact RTA at Tel no. 1800 309 4001 (toll free).

share capital of the Company as on the Cut-Off Date i.e. Friday, June 16, 2023.

Approval for payment of Remuneration to Mr. Shrikant Himatsingka designated as

Approval for Re-appointment of Mr. D. K. Himatsingka as Executive Chairman.

Executive Vice Chairman & Managing Director of the Company.

Chairman & Managing Director.

through the remote e-voting system.

KFin – http://evoting.kfintech.com.

cut-off date for Register of Members for the same.

Date: June 21, 2023 **Nehal Shah** Place: Mumbai Company Secretary & Compliance Officer

**JTEKT INDIA LIMITED** 

(CIN - L29113DL1984PLC018415) Regd. Office: UGF-6, Indraprakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi 110001. Tel. No.: 011-23311924, 23327205

E-mail: investorgrievance@itekt.co.in; Website: www.itekt.co.in Notice for issue of Duplicate Share Certificates

Members of the public are hereby informed that original share certificates, details of which are given hereunder have been reported lost / misplaced and pursuant to the provisions of Investor Education & Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 were transferred to IEPF and now the shareholders have furnished the documents claiming their shares from IEPF.

SI.	Share	No. of	lo. of Distinctive Nos.		Folio	Name of the	
No.	Certificate	Shares	From	То	No.	Shareholder	
	Nos.						
1.	10541-44	400 <sup>*</sup>	1053308	1053707	006294	Surinder Kumar	
	44585-87	240*	4978744	4978983		Mahindra	
	16462	3200#	52343054	52346253			
2.	10545-48	400*	1053708	1054107	006295	Neerja Mohindra	
	44588-90	240*	4978984	4979223			
	16463	3200#	52346254	52349453			

(Face Value of Rs. 10/- each) # (Face Value of Rs. 2/- each,

Any person having any objection to the issue of Duplicate Share Certificates may submit the same in writing with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of publication of this Notice. Members of the public are cautioned against dealing in the bove mentioned share certificates.

For JTEKT India Limited Saurabh Agrawa Place : Gurugram Company Secretary **KANSAI** 

### **NEROLAC**

KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED

Registered Office: Nerolac House, Ganpatrao Kadam Marq. Lower Parel, Mumbai – 400 013, Maharashtra Corporate Office: 28th Floor, A-wing, Marathon Futurex, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, Maharashtra Tel.: +91 22 40602500 / 40602501; Website: www.nerolac.com Investor Relations e-mail ID: <a href="mailto:investor@nerolac.com">investor@nerolac.com</a> CIN: L24202MH1920PLC000825

#### NOTICE OF RECORD DATE FOR THE PURPOSE OF **BONUS ISSUE**

NOTICE is hereby given that Tuesday, 4th July, 2023 is fixed as the Record Date for ascertaining the eligibility of Members for issuance of Bonus Equity Shares of the Company in the proportion of 1 (One) New Equity Share of Re.1 each for every 2 (Two) existing Equity Shares held by the Members of the Company

This is further to the approval by the Members of the Company by way of Postal Ballot for the issue of Bonus Shares.

For KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED

Place: Mumbai Date: 21st June, 2023

G. T. Govindarajan Company Secretary

#### **VODAFONE IDEA LIMITED**

CIN: L32100GJ1996PLC030976

Registered Office: Suman Tower, Plot No. 18, Sector-11, Gandhinagar - 382 011, Gujarat Email: shs@vodafoneidea.com Website: www.mvvi.in Tel: +91-79-66714000 Fax: +91-79-2323225

#### NOTICE OF THE TWENTY EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)/BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that Twenty Eighth Annual General Meeting (AGM) of the Members of Vodafone Idea Limited ('the Company') will be held on Monday, the 17th day of July, 2023 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business set out in the Notice of the AGM.

The AGM is convened in compliance with the applicable provisions of Companies Act. 2013 and rules made thereunder read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular Nos. 02/2021, 17/2020, 14/2020, 2/2022 and 10/2022 dated January 13, 2021, April 13, 2020, April 8, 2020, May 5, 2022 and December 28, 2022 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('Listing Regulations') read with SEBI Circular No. SEBI/ HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with above circulars, the Notice of the 28th AGM together with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent to those members electronically whose E-mail IDs are registered with the Depository Participant(s) / Registrar and Transfer Agent i.e. Bigshare Services Pvt. Ltd. / the Company.

The Notice of 28th AGM and the Annual Report for Financial Year 2022-23 will also be available on the Company's website www.mvvi.in. websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') https://www.evoting.nsdl.com. Necessary arrangements have been made by the Company with NSDL to facilitate remote e-voting and e-voting during the AGM.

Members holding shares in physical form and who have not yet registered / updated their E-mail ID with the Company are requested to register/update their E-mail ID with Bigshare Services Pvt. Ltd. by sending requests at investor@bigshareonline.com with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card and selfattested copy of any other document (eg. Driving License, Passport, Aadhar Card etc.) in support of address of the members or by logging onto https://www.bigshareonline.com/InvestorLogin.aspx.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their E-mail IDs with their respective Depository Participant(s).

The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice. Additionally, the Company will provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting at the AGM shall be provided in the Notice.

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA Circulars

For Vodafone Idea Limited

Sd/-

Place : Mumbai Dated: June 21, 2023

Pankaj Kapdeo **Company Secretary** 







Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021 Website: www.unionbankofindia.co.in Email: investorservices@unionbankofindia.bank

#### ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE I VC/OAVM AND INTIMATION OF CUT-OFF DATE

Dear Shareholde

NOTICE is hereby given that the **21st (Twenty First) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of Union Bank of India ("Bank") will be held on Friday, August 4, 2023 at 11.00 am (IST) at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Vide Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility Pursuant to General Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022 issued by the Ministry of Corporate

Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 "Listing Regulations"), Communication No. F. No. 7/47/2020-BOA dated 10thJuly 2020 of Ministry of Finance, Government of India, the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. Accordingly, in compliance with the applicable provisions of the Regulations, 2015 and the above guidelines, the AGM of the Bank will be held hrough VC/OAVM. The Shareholders are further informed that:

- The Notice of the AGM and the Annual Report including the financial statements for the year ended on March 31 2023 will be sent only by email to all those shareholders, whose email addresses are registered with the Bank or with their respective Depository Participants (DP), in accordance with MCA Circulars and SEBI Circulars. Shareholders can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.
- The instructions for joining the AGM and the manner for participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM will be provided in the detailed Notice of the AGM.
- iii. The Annual Report along with Notice of AGM will also be hosted on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and the website of BSE www.bseindia.com and NSE
- iv. In case you have not registered your email address and / or not updated your bank account mandate for receipt of dividend with the Bank or Depository Participant, please follow below instructions to registe your email ID / bank account:



QR Code to get Form ISR 1Prescribed Form ISR-1 pursuant to SEBI Circular No.SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021 at the following address:

KFin Technologies Limited

Unit: Union Bank of India Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda

Hvderabad - 500032

Email: einward.ris@kfintech.com, Toll free: 1800 309 4001 Website: www.kfintech.com

You may also send scanned copy of the request letter to einward.ris@kfintech.com

The said form is available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in/  $english/important-announcement-to-physical-shareholders. as {\tt px}$ 

Demat Holding

Place: Mumbai

Date: 21.06.2023

Form ISR 1

the demat account and register your email address as per the process advised by v. The shareholders who have not registered their email id can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink - https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/

Please contact your Depository Participant (DP) with whom you are maintaining

mobileemailreg.aspx The detailed process of participating in the AGM through VC / OAVM is also given in the Notice of the AGM. vi. The bank shall dispatch the dividend warrants (if any) in due course to those shareholders who have

- not registered / updated their bank account mandate ii. Payment of Dividend is subject to applicable TDS (if any) as per Income Tax Act,1961 (The Act) as
- amended. Deduction of TDS, if any, would depend on the residential status of the shareholders and the necessary documents submitted and accepted by the Bank in accordance with the applicable provisions of the Act. viii.The Bank is obligated to deduct TDS based on the records available with RTA and no request will be
- entertained for revision of TDS return thereafter.
- x. Shareholders are therefore requested to furnish the necessary documents to our Registrar and Share Transfer Agent, M/s KFin Technologies Ltd at https://ris.kfintech.com/form15
- Bank has fixed Friday, 28th July 2023 as the Cut-off date for E-Voting and for determining entitlement of members for dividend of FY 2022-23, if declared at the AGM. By order of the Board of Directors For UNION BANK OF INDIA

S. K. Dash Company Secretary

**INSPIRED EXCELLENCE** 

For Himatsingka Seide Limited M. Sridhar Company Secretary

**Himatsingka Seide Limited** 

and transparent matter.

the Company are listed.

Date: June 21, 2023

Place: Bengaluru

Registered Office: 10/24 Kumarakrupa Road, High Grounds, Bengaluru - 560 001 **Phone:** +91-80-42578000 **Fax:** +91-80-4147 9384

Email: investors@himatsingka.com Website: www.himatsingka.com CIN: L17112KA1985PLC006647

# ज़ी पर आरोपों के प्रति गंभीर: सोनी

सोनी ने कहा, घटनाक्रम पर हमारी नजर है जो भारतीय फर्म के साथ सौदे पर असर डाल सकता है

मुंबई, 21 जून

 नी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने बुधवार को कहा कि बाजार नियामक सेबी ने जी एंटरटेनमेंट के प्रवर्तकों के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसे वह गंभीरता से ले रही है और स्थिति पर नजर रखे हए है।

जापान की सोनी पिछले हफ्ते सेबी की तरफ से जारी उस आदेश पर प्रतिक्रिया जता रही थी जिसमें नियामक ने ज़ी के सीईओ पुनीत गोयनका और संस्थापक सुभाष चंद्रा को निदेशक पद से हटने को कहा था। सेबी ने ज़ी एंटरटेनमेंट में रकम की हेराफेरी का आरोप लगाया है। गोयनका व चंद्रा ने इन आरोपों से इनकार किया है और आदेश पर स्थगन के लिए सैट का रुख किया है। अमेरिका के कलवर सिटी में जारी बयान में सोनी ने कहा, हाल में कई प्रेस रिपोर्ट में सुभाष चंद्रा व पुनीत गोयन के खिलाफ सेबी के अंतरिम आदेश के बाद सोनी पिक्चर्स संग जी के नियोजित विलय को लेकर कयास लगाए गए हैं। सेबी के अंतरिमआदेश को हमने गंभीरता



#### सोनी ने जारी किया बयान

■प्रेस रिपोर्ट में चंद्रा व गोयनका के खिलाफ सेबी के अंतरिम आदेश के बाद सोनी पिक्चर्स संग ज़ी के नियोजित विलय को लेकर कयास लगाए गए

नजर रखे हुए हैं

नजर बनाए रखेंगे जो सौदे पर असर

दाल सकता है। सेबी ने सैट को भेजे शपथपत्र में कहा है कि हमने रकम की हेराफेरी में इकाइयों को शामिल पाया है और काफी अनियमितता भी देखने को मिली है। सेबी ने अपनी कार्रवाई को उचित ठहाराते हुए कहा है कि उसने प्रबंधन और निवेशकों व अन्य से लिया है और हम घटनाक्रम पर हितधारकों को संरक्षित रखने के ■ सेबी का जी एंटरटेनमेंट में रकम की हेराफेरी का आरोप

■कंपनी ने कहा, हम स्थिति पर

लिए कदम उठाया। सेबी का यह भी कहना है कि अपीलकर्ताओं ने ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया जिससे संकेत मिले कि अंतरिम आदेश से पहले व्यक्तिगत सनवाई न होने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नियामक ने कहा है कि वह अपीलकर्ताओं को सुनवाई का मौका देने का इच्छक है।

## सेबी के आदेश के बाद ज़ी व सोनी के विलय पर जोखिम

बीएस संवाददाता मुंबई, 21 जून

बाजार नियामक सेबी के आदेश के बाद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के विलय पर जोखिम मंडरा रहा है। बोफा सिक्योरिटीज ने एक नोट में ये बातें कही है।

ब्रोकरेज ने कहा, हमारी राय में सोनी के साथ विलय के बाद जी को लेकर अच्छी बात यह थी कि सोनी के प्रबंधन के जुड़ाव के चलते कॉरपोरेट गवर्नेंस व कारोबारी रफ्तार में सुधार होगा। लेकिन जी के प्रवर्तकों के खिलाफ सेबी का अंतरिम आदेश सोनी संग विलय पर जोखिम खडा कर

विलय को लेकर अनिश्चितता और विज्ञापन पर कम खर्च के कारण राजस्व की रफ्तार पर दबाव को देखते हुए अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म ने कोई कीमत लक्ष्य नहीं रखा है।

बोफा के नोट में कहा गया है, ज़ी को लेकर हमारी कोई रेटिंग नहीं है क्योंकि हम विलय को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं कि यह हो रहा है या नहीं। अगर जी के प्रवर्तक सेबी के आदेश पर स्थगन हासिल कर लेते हैं और विलय आगे बढ़ता है तो शेयर की दोबारा रेटिंग गवर्नेंस में सधार आदि की उम्मीद में हो सकती है। अगर सेबी के आदेश पर स्थगन मिलता है तो भी ज़ी-सोनी के विलय को लेकर जोखिम बना रहेगा. यानी यह या तो नहीं होगा या अगर होगा तो गोयनका को नई इकाई का सीईओ बनने की इजाजत नहीं मिल सकती है। तब हमें विलय के बाद बनने वाली नई इकाई के परिदृश्य को लेकर आश्वस्त नहीं होंगे। हमारा अनुमान है कि इस शेयर की डी-रेटिंग 10-12 गुने पीई गुणक पर हो सकती है।

## थोक एसएमएस घोटाले पर सेबी ने उठाया कदम

बीएस संवाददाता मुंबई, 21 जून

थोक एसएमएस के जरिए बाजार पर कथित तौर पर असर डालने के मामले में बाजार नियामक सेबी ने 135 इकाइयों को प्रतिभृति बाजार में प्रवेश से रोक दिया है और 126 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लौटाने का आदेश दिया है।

ऐसा करने वालों ने प्रभाव डालने वाली इकाइयों के जरिये पहले पांच माइक्रोकैप कंपनियों के शेयर कीमतों व वॉल्यूम में इजाफा किया और फिर थोक एसएमएस के जरिये खरीद की सिफारिश के साथ इन सचनाओं का प्रसार आम निवेशकों के बीच कर दिया ताकि निवेशक इन्हें खरीदने के लिए आकर्षित हों। बाद में इन्होंने इन कंपनियों के पहले से खरीदे गए शेयर ऊंची कीमतों पर बेचकर मुनाफावसूली कर ली।

सेबी ने पाया कि इसके अंतिम लाभार्थियों में कुछ कंपनियों के प्रवर्तक और ऐसे संदेश के प्रसार के पीछे प्रथम दृष्टया मास्टरमाइंड हनीफ शेख शामिल थे।

बाजार नियामक ने कुल 226 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जिनमें पांच स्मॉलकैप कंपनियां मसलन

126 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लौटाने का निर्देश, 200 से ज्यादा इकाइयों को नोटिस जारी

विशाल फैब्रिक्स, जीबीएल इंडस्ट्रीज, मौर्या उद्योग, 7एनआर रिटेल और दार्जिलिंग रोपवे कंपनी

इस मामले में संभावना जताई जा रही है कि अवैध कमाई का आंकडा करीब 144 करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है।

नियामक ने ऐसी धोखाधडी वाली गतिविधियों से निवेशकों को सतर्क किया है, जो थोक एसएमएस, वेबसाइटों, सोशल मीडिया मसलन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि के जरिये प्रसारित किए जाते हैं। नियामक ने निवेशकों को सिर्फ सेबी पंजीकृत इंटरमीडियरीज से ही सौदा करने की सलाह दी है।

इस जांच में सेबी ने डिजिटल पहुंच, नकदी जमाओं की रिसीटस और बैंक लेनदेन का इस्तेमाल एसएमएस भेजने वालों व अन्य इकाइयों की पहचान में की, जो ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल थे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय से 90 फीसदी एबिटा पर अदाणी की नजर

देव चटर्जी मुंबई, 21 जून

अदाणी समूह वर्ष 2025 तक इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय से अपना करीब 90 प्रतिशत एबिटा हासिल करेगा, जो मौजूदा समय में 83 प्रतिशत है। कंपनी के प्रमुख अधिकारियों ने हाल में बैंकरों के साथ बातचीत में इसकी जानकारी दी।

एनर्जी एवं युटिलिटी सेगमेंट का कंपनी के इन्फ्रा व्यवसाय के मनाफे में अभी 49 प्रतिशत योगदान है और अन्य 25 प्रतिशत मुनाफा परिवहन तथा शेष सीमेंट तथा लॉजिस्टिक व्यवसायों से हासिल होता है। बैंकरों को बताया गया कि व्यवसाय में अच्छी तेजी आएगी और नवी मुंबई हवाई अड्डा जैसी कई नई तथा अन्य परियोजनाओं का संपूर्ण एबिटा में बडा योगदान रहेगा।

अधिकारियों का कहना है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय से ज्यादा योगदान का संपूर्ण एबिटा पर सकारात्मक असर दिखेगा और इससे समह को मजबत नकदी प्रवाह में मदद मिलेगी। इस घटनाक्रम से अवगत एक अ धिकारी ने कहा. 'अदाणी पोर्टफोलियो ने अने सभी व्यवसायों में मजबूत पहचान बनाई है। यह रुझान मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी बना रहा।'

# एमएफआई शेयरों में तेजी बने रहने की उम्मीद

निकिता वशिष्ठ नई दिल्ली, 21 जून

पिछले 6 महीनों के दौरान, माइक्रोफाइनैंस संस्थानों (एमएफआई) के शेयरों में 60 प्रतिशत तक की तेजी आई है और उन्होंने बीएसई के सेंसेक्स को बड़े अंतर

कोविड-19 की वजह से मांग में आई सुस्ती के बाद बाजार भागीदारी में सुधार और एनआईएम में तेजी तथा परिसंपत्ति गुणवत्ता पटरी पर लौटने से इन कंपनियों की ऋण वृद्धि को ताकत मिली है। विश्लेषकों का कहना है कि यही वजह है कि इन शेयरों में तेजी बनी रहेगी, क्योंकि आय वृद्धि की रफ्तार बरकरार रहेगी।

जेएम फाइनैंशियल के समीर भिसे ने अक्षय जैन और अपूर्व देशमुख के साथ मिलकर तैयार की गई रिपोर्ट में कहा है, 'हमारा मानना है कि एमएफआई कंपनियों की रेटिंग में बदलाव बरकरार रहेगा, क्योंकि वे मजबूत वृद्धि के राह पर बढ़ रही हैं और ऋण लागत घटाने में सक्षम हो रही हैं, जिससे प्रतिफल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ताजा मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, मूल्यांकन अनुकूल बना हुआ है।'

माइक्रोफाइनैंस उद्योग के संगठन एमएफआईइन इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-22 के दौरान 11 प्रतिशत की धीमी ऋण वृद्धि दर्ज की गई थी. जो वित्त वर्ष 2023 में सालाना आधार पर 22 प्रतिशत बढ़कर 3.48 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

माइक्रोफाइनैंस ऋण वितरण पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 23 प्रतिशत तक सुधरकर 2.96 लाख करोड़ रुपये हो गया।वित्त वर्ष 2022 में यह 2.39 लाख करोड़ रुपये था। इससे एमएफआई को अपनी बाजार भागीदारी बढ़ाकर 38.2 प्रतिशत पर पहुंचाने में मदद मिली, जो वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीनों के दौरान 331 आधार अंक तक अधिक थी। इस बीच, माइक्रोफाइनैंस से संबंधित बैंकों की बाजार भागीदारी समान अवधि के दौरान 430 आधार अंक तक घटकर 36 प्रतिशत रह

एसीई इक्विटी के आंकड़े से पता चलता है कि स्टॉक एक्सचेंजों पर, सूर्योदय स्मॉल फाइनैंस बैंक, सैटिन

#### बढ़त की संभावना

- विश्लेषकों को फ्यूजन माइक्रो, स्पंदन जैसी माइक्रोफाइनैंस कंपनियों के शेयरों में मजबूत तेजी की संभावना दिख रही है
- ताजा तेजी के बावजूद, इस क्षेत्र के कई शेयरों के लिए मूल्यांकन अनुकूल बना हुआ है
- वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में इस क्षेत्र में मजबूत ऋण वृद्धि दर्ज किए जाने का अनुमान है

क्रेडिटकेयर नेटवर्क, उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक, क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण, फ्युजन माइक्रो फाइनैंस, फाइव स्टार बिजनेस फाइनैंस, और स्पंदन स्फूर्ति में पिछले 6 महीनों के दौरान 11 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत के बीच तेजी आई। तुलनात्मक तौर पर, सेंसेक्स में 4 प्रतिशत की तेजी आई, और बीएसई बैंकेक्स में 2.2 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया।

विश्लेषकों का मानना है कि वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में इस क्षेत्र में मजबूत ऋण वृद्धि दर्ज की जाएगी और इसे बड़े आकार के सौदों में तेजी, ग्राहक जोड़ने की तेज रफ्तार, और अनुकूल नियामकीय हालात से मदद मिलेगी। केयरएज रेटिंग्स ने अगले 12-18 महीनों के दौरान यह वृद्धि दर 20-25 प्रतिशत रहने का अनमान जताया है।

#### निवेश रणनीति

सैमको सिक्योरिटीज के वीर त्रिवेदी का मानना है कि अच्छी गुणवत्ता वाली एमएफआई को लाभ लगातार मिलता रहेगा। उन्होंने कहा, 'सिर्फ मौजुदा अच्छी तेजी को ध्यान में रखकर खरीदारी नहीं करें, क्योंकि क्षेत्रीय जोखिम भी देखे जा सकते हैं। इसलिए, एमएफआई की मजबृत भौगोलिक मौजुदगी महत्वपूर्ण है। उन निवेशकों के लिए मौका अभी भी है, जो यह समझते हैं कि वे कमाई के अवसर गंवा चुके हैं।'

# एचएमए एग्रो के आईपीओ के लिए 55 फीसदी आवेदन

मांस निर्यातक एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम ( आईपीओ ) को बधवार को 55 फीसदी आवेदन मिले। आईपीओ गरुवार को बंद होगा। संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 37 फीसदी, खुदरा निवेशकों की श्रेणी में 38 फीसदी और एचएनआई श्रेणी में 1.2 गुना बोलियां हासिल हुईं। कंपनी ने 480 करोड़ रुपये के आईपीओ की कीमत का दायरा 555 से 585 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ में कंपनी नए शेयर जारी कर 150 करोड़ रुपये जुटा रही है।

#### डिलिवरी में 2.5 फीसदी हिस्सा बेचेगी कार्लाइल

कार्लाइल ने बुधवार को ब्लॉक डील के माध्यम से डिलिवरी में अपने 720 करोड़ रुपये के 1.8 करोड़ शेयर, जो 2.53 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है उसे बेचने की योजना बनाई है। कंपनी ने बुधवार को 389 रुपये के बंद भाव की तुलना में 385.50 रुपये प्रति शेयर की कीमत तय किया है।

#### एलआईसी ने एनएमडीसी में दो प्रतिशत हिस्सेदारी बेची

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी में अपनी दो प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 649 करोड़ रुपये में बेच दी है। एलआईसी ने शेयर बाजारों को दी गई सचना में कहा कि उसने खले बाजार में एनएमडीसी के अपने 6.06 करोड़ शेयरों को बेच दिया है जो 2.07 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। शेयरों की बिक्री 107.59 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर हुई है। एलआईसी को करीब 649 करोड़ रुपये मिलेंगे। *भाषा* 

#### CIN: L15100WB1989PLC046886

Registered Office: Unit - 601, Ambuja Neotia Ecocentre EM - 4, EM Block, Sector V, Kolkata – 700091, West Bengal Email: compliance.thirdwave@gmail.com; Website: www.twfil.com;

endations of the Committee of Independent Directors ("IDC") on the open offer to the Sharehoders of Thirdwave Financial Intermediaries Limited ("Targe Company" or "TC") under Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011, made by UVS Hospitality Private Limited (PAN NO. AACCU9120C) having registered office at 501-A. Pinnacle Corporate Park BKC Bandra (E). Vill Kole Kalvan Mumbai – 40005 Maharashtra hereinafter collectively referred to as "Acquirer") 20.06.2023

L	2.	(TC)	Thirdwave Financial Intermediaries Limited
	3.	Details of the Offer pertaining to the TC	Offer is being made by the Acquirer pursuant to Regulation 3(1) and Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations for the acquisition of upto 5,73,976 (Five Lakh Seventy- Three Thousand Nine Hundred Seventy- Six) fully paid-up equity shares of face value Rs. 10/- each, representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company at a price of 17/- (Rupees Seventeen Only) per Equity Share ("Offer Price"), payable in cash.
ľ	4.	Name of the Acquirer(s) and the Person Acting in Concert (PAC) with the Acquirer	
	5.	Name of the Manager to the Offer	SEBI Registration No.: INM000012500 B-502, Statesman House, 147 Barakhamba Road, New Delhi- 110001; Tel:+9111 43029809; Website: www.ftfinsec.com; Email: Vikasverma@ftfinsec.com Contact person: Mr. Vikas Kumar Verma
П	6	Mambars of the Committee of	1 Candoon Vadia (Chairparcon)

Independent Directors (IDC) 2. Puneet Gupta (Member) IDC Member's relationship with IDC members are Independent Directors on th the TC (Director, Equity Shares Board of the TC. Shareholding of the IDC member contact/ in the TC are as follow: Sandeep Kedia – 99 Shares (0.004%) Puneet Gupta - Nil

IDC members has not entered into any other contract/relationship with the TC except a directors on the board of the TC and a chairperson/member of the Board Committees Trading in the Equity Shares/ None of the IDC members has traded in Equity other Securities of the TC by Shares/ other securities of the TC during the IDC Members period of 12 months prior to the date of Publi

Announcement dated April 18, 2023 or the perior from Public Announcement till the date of thi recommendation. IDC Member's relationship with None of the IDC Members has any contract, the Acquirer (Director, Equity relationship with the Acquire

Shares owned, any oth contact/ relationship), if any Trading in the Equity shares/ other securities of the acquirer Not applicable

by IDC Members The IDC is of the view that the Offer is fair and Offer, as to whether the offer is reasonable. However, the shareholders should fair and reasonable independently evaluate the Offer and tak

12. Summary of reasons fo IDC members have reviewed the Publi Announcement("PA"), Detailed Public Statemen ("DPS"), Draft Letter of Offer ("DLOF") and the Letter of Offer ("LOF"), issued by Manager to th Open Offer on behalf of the Acquire Based on review of PA, DPS, DLOF and LOF, IDC of the view that the Offer Price of Rs. 17/- (Rupee Seventeen Only) per Equity Share offered by th acquirer is in line with SEBI(SAST) Regulations and appears to be fair and reasonable 13. Details of Independent

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correc and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and include all the information required to be disclosed by the TC under the SEBI (SAST) Regulation For and on behalf of the Committee of Independent Directors of

Advisors, if any

Date: 20.06.2023

Mr. Sandeep Kedi Chairperson of IDC

#### ब्लॉक डील के बाद 10 फीसदी चढ़े श्रीराम फाइनैंस व पीरामल एंटरप्राइजेज के शेयर विक्रेताओं के नाम का पता तत्काल 922.35 रुपये पर लॉक हो गया।

दीपक कोरगांवकर मुंबई, 21 जून

श्रीराम फाइनैंस का शेयर बुधवार सुबह 52 हफ्ते की नई ऊंचाई 1,715 रुपये को छू गया और एनएसई पर 10 फीसदी के

अपर सर्किट के कारण इस पर अस्थायी तौर पर कारोबार रुका, एनबीएफसी की करीब 8 फीसदी इक्विटी की बिकवाली एक्सचेंजों पर हुई। श्रीराम फाइनैंस की करीब 8.3 फीसदी

नहीं चल पाया है। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि पीरामल एंटरप्राइजेज बुधवार को ब्लॉक डील के जॉरिए श्रीराम फाइनैंस की 8.34 फीसदी हिस्सेदारी बेचने वाली थी।

श्रीराम फाइनैंस की करीब 8.3 फीसदी हिस्सेदारी की कीमत 4,824 करोड रुपये रही

हिस्सेदारी यानी 3.122 करोड़ शेयर का अनुमान है। इस बीच, पीरामल एनएसई पर बिके, जिसकी कीमत एंटरप्राइजेज का शेयर भी एनएसई पर 4,824 करोड़ रुपये रही। खरीदारों व 10 फीसदी के अपर सर्किट

अमेरिकी कंपनी टीपीजी ने श्रीराम

कंपनी के करीब 3.1 करोड़ शेयर (4,832 करोड रुपये) पेशकश संस्थागत निवेशकों को की गई थी। इसका

1,483 रुपये रहने

दोनों शेयर एफऐंडओ में भी ट्रेड हए, जहां सर्किट की कोई सीमा नहीं है।

फाइनैंस की पूरू 99.1 लाख शेयर यानी 2.65 फीसदी हिस्सेदारी सोमवार को बीएसई पर ब्लॉक डील के जरिए 1,400 करोड़ रुपये में बेचे थे। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में यह शेयर 22 फीसदी चढ़ा है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा है, 'पीरामल एंटरप्राइजेज की निकासी से श्रीराम फाइनैंस का शेयर से अनिश्चितता दूर होगी और कारोबारी वृद्धि में सुधार व अपेक्षाकृत आकर्षक मृल्यांकन के बीच शेयर की दोबारा रेटिंग के लिए

#### युनियन बैंक 🚺 Union Bank केंद्रीय कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021

वैबसाइट: www.unionbankofindia.co.in ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.bank

वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों के जरिए 21वीं वार्षिक साधारण बैठक एवं कट ऑफ तारीख की सूचना

पिय शेयरधारक

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (**"बैंक"**) के शेयरधारकों की **21वीं (इक्कीसवीं) वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") दिनांक 04 अगस्त, 2023 दिन शुक्रवार को प्रात: 11.00 बजे (IST)** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई (बैठक का डीम्ड स्थान) में वीडियो कांफेंसिंग / अन्य श्रव्य दश्य माध्यमों के जरिए आयोजित की जाएगी

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनाँव 5 जनवरी, 2023 और अधिनियमों के प्रावधानों एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण सं. एफ.नं. 7/47/2020-बीओए दिनांक 10 जुलाई, 2020 वे अनुपालन में, बैंक की एजीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य दृश्य सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाती है, जिसके लिए सार्वजनिक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है. तदनुसार, विनियम, 2015 के प्रचलित प्रावधानों के अनुपालन एव उपरोक्त दिशानिर्देशों के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों के जरिए बैंक की वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) आयोजित होगी. इसके अतिरिक्त शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि:

- सभी शेयरधारकों को जिनका ई–मेल पता बैंक या उनके डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों (डीपी) में पंजीकृत है, उन्हें एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों सहित वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी. शेयरधारक वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों के जरिए वार्षिक साधारण बैठक से जुड़ व शामिल हो सकते हैं. वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों के जरिए वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों का शामिल होना कोरम की गणना के उद्देश्य हेत गिना जाएगा
- एजीएम में शामिल होने हेतु निर्देश तथा एजीएम के दौरान सुदूर ई-वोटिंग में सहभागिता के तरीके या ई-वोटिंग प्रणाली के जिए मतदान करने के तरीके एजीएम नोटिस में विस्तृत रूप में दिए गए हैं.
- एजीएम की सूचना के सहित वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in एवं बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com. पर भी उपलब्ध रहेगी
- यदि आपका ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और/या बैंक या डिपॉज़िटरी प्रतिभागी के पास लाभांश की प्राप्ति के लिए अपना बैंक खाता मैंडेट अद्यतन नहीं किया है, तो कृपया अपनी ई-मेल आईडी/बैंक खाता पंजीकृत करने हेत निम्नलिखित निर्देशों का



सेबी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडीआरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 के अनुसार निर्धारित **प्रारूप आईएसआर-1** को निम्नलिखित पते पर भेजें: केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड,

यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31 32, फानेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500032

ईमेल: einward.ris@kfintech.com, टोल फ्री: 1800 309 4001 वेबसाइट: www.kfintech.com

फॉर्म आईएसआर1 आप अपने अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति einward.ris@kfintech.com पर भी भेज सकते हैं. प्राप्त करने हेतु फॉर्म बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/importantannouncement-to-physical-shareholders.aspx पर भी उपलब्ध है.

क्यूआर कोड

दिनांक : 21.06.2023

डिमैट धारक

कृपया जहां आपका डिमैट खाता है, अपने डिपॉज़िटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें तथा अपने डीपी की सलाह के अनुसार ई-मेल पते को रजिस्टर करने की प्रक्रिया पूरी करें.

जिन शेयरधारकों ने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है, तो वे बैंक की वेबसाइट लिंक :https://ris.kfintech.com/ clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर ई – मेल आई डी एवं मोबाइल नंबर को पंजीकृत करने के पश्चात एजीएम में शामिल हो सकते हैं. वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों के जरिए वार्षिक साधारण बैठक में शामिल होने की

विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की नोटिस में भी दी गई है. vi. बैंक ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट यथा समय प्रेषित करेगा जिन्होंने अपना बैंक खाता मैंडेट पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है.

vii. लाभांश का भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) यथासंशोधित रूप में लागू टीडीएस (यदि कोई हो) के अध्यधीन है टीडीएस की कटौती, यदि कोई हो, शेयरधारकों की आवासीय स्थिति एवं प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेजों और अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने पर निर्भर करेगी. viii. बैंक आरटीए के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर टीडीएस काटने के लिए बाध्य है और उसके बाद टीडीएस रिटर्न में संशोधन के लिए

ix. इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सदस्यों की पात्रता, यदि एजीएम में अनुमोदित होता है, तो निर्धारित की जाएगी.

कोhttps://ris.kfintech.com/form15 पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें.

बैंक ने 28 जुलाई, 2023 दिन शुक्रवार को ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि निश्चित की है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लाभांश हेतु निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते युनियन बैंक ऑफ इंडिया हस्ता / -एस. के. दाश

कंपनी सचिव

#### भारत का 3.5 लाख करोड़ डॉलर का इक्विटी बाजार माधवी पुरी बुच के नेतृत्व में तेजी से सुधार दर्ज कर रहा है। माधवी पुरी बुच ने मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की कमान संभाली। इन सुधारों का अंदाजा इसी

खुशबू तिवारी और समी मोडक

मुंबई, 21 जून

से लगाया जा सकता है कि बुच के कार्यकाल में आयोजित पांच बोर्ड बैठकों के दौरान एजेंडों की औसत संख्या उनके तीन पूर्ववर्तियों के समय (लगभग 8-8) की तुलना में बढ़कर 12 हो गई है। बाजार कारोबारियों का कहना है कि अगले सप्ताह होने वाली सेबी की बोर्ड बैठक में भी कई एजेंडों पर चर्चा होने की संभावना है।

स्टेकहोल्डर्स इम्पावरमेंट सर्विसेज (एसईएस) के प्रबंध निदेशक और सेबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक जेएन गुप्ता ने कहा, 'इससे नई अध्यक्ष द्वारा प्रतिभृति बाजार को मजबूत बनाने के मकसद से जल्द बदलाव लाने के प्रति उत्सुकता का पता चलता है।'

बुच के कार्यकाल के यह अभी शुरुआती समय है, लेकिन ज्यादातर बाजार कारोबारियों का कहना है कि



सेबी बोर्ड बैठक की घोषणाओं में तेजी

सुधारों की रफ्तार में बदलाव दिखेगा। कुछ का यह भी मानना है कि उन्हें बदलावों के साथ रफ्तार में बने रहने में समस्या हो रही है।

29 मार्च को हुई पिछली बोर्ड बैठक में, बाजार नियामक के बोर्ड ने म्युचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ), डेट मार्केट और कॉरपोरेट प्रशासन जैसे क्षेत्रों में कई सुधारों को मंजुरी प्रदान की थी।

सितंबर और दिसंबर की पिछली बोर्ड बैठकों में, सेबी के बोर्ड ने एक दर्जन से ज्यादा प्रमुख एजेंडों पर चर्चा की और उन्हें मंजूरी प्रदान की थी। पिछली बोर्ड बैठक में, बाजार नियामक ने करीब 20 चर्चा पत्र जारी किए। इनमें से कुछ प्रमुख सुधारों में आईपीओ के लिए समय-सीमा मौजूदा 6 दिन से घटाकर 3 दिन करना, फंड उद्योग द्वारा वसूले जाने वाले टोटल एक्सपेंस रेशियो

(टीईआर) की समीक्षा, विदेशी (एफपीआई) से ज्यादा खुलासे और संदिग्ध ट्रेडिंग गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाने जैसे मुद्दे मुख्य रूप से शामिल थे। बाजार पर्यवेक्षकों का कहना है कि सेबी द्वारा जारी कई नए प्रस्ताव सकारात्मक हैं और इनसे घरेलू बाजारों को मजबूत बनाने के साथ साथ हेराफेरी और अन्य गड़बड़ियों की आशंका घटेगी, हालांकि इन प्रस्तावों पर अमल चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रजस्ट्रीट लॉ एडवायजर्स के

सुमित अग्रवाल ने कहा, 'अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को दुरुस्त बढाने के लिए सेबी के प्रयासों (जैसे प्रक्रियाओं को आसान बनाने और विभागों के बीच समन्वय सुधारने ) ने तेजी से निर्णय लेने में अहम योगदान दिया है। इसके तकनीकी डिजिटलीकरण में नवाचार से भी डेटा प्रोसेसिंग एवं विश्लेषण आसान हुआ है जिससे सेबी को जरूरी निर्णय तुरंत लेने में मदद

12 मई और 19 जून के बीच, सेबी ने 19 चर्चा पत्र जारी किए, जिनमें से 11 चर्चाएं तीन दिन कीअवधि से अधिक की थीं।



IDBI Bank Ltd., Retail Recovery Department, 2nd Floor, Mittal Court, B - Wing, Nariman Point, Mumbai - 400021, Tel. No.: 022-6127 9345 / 6127 9342 /6127 9348

APPENDIX IV [RULE 8(1)]

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

The undersigned being the authorised officer of IDBI Bank Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of Security nterest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice, calling upon the borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 day

rom the date of the receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has take Possession of the property described herein below, in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The borrowers attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the IDBI Bank Ltd for an amount mentioned below and interest and charges thereon.

Name of the Borrower / Owner of the Property /	Date of Demand	Date of Symbolic	Description of Property	Amount claimed in		
Guarantor	Notice	Possession		demand notice		
Sh. Arjun Rajendra Khairaliya / Sh Rajendra Dhillon Khairalia	10.01.2023	23.06.2023	Flat No.102, 1st Floor, Bldg No.3, Hill View Apartment, Mohape, Raigad, Panvel, Navi Mumbai-410206	1848007		
Sh. Jagjeet Singh Sharad / Smt. Sandhya Singh	28.02.2023	19.06.2023	Flat No 403, H Wing, 4th Flr, Shubhvastu Housing Complex, Bldg No 5, Type D, Plot No 5,Opp Hotel Parivar Swagat Off Mumbai Nashik Highway, Vasind W, Thane-421604	1245692.52		
Sh. Sanjivkumar Jha / Smt. Savita Jha	28.02.2023	19.06.2023	Flat 103, 1st Floor, Bldg. N.G. Baveno, Golden Nest Circle, Mira Byhd, Bhayander- East, Thane, Maharashtra-401105	5095254		
Sh. Vinay Krishna / Smt. Meenu Krishna	28.02.2023	19.06.2023	F/No 101, 1st Floor, Regal Chs Ltd Near Poonam Sagar Complex ,Opp Sector No 10, Mira Road -E , Thane, Maharashtra-401301	1174337		
Smt. Mamta Bhima Pawar / Mr. Ganesh Bhaskar Gaikwad	28.02.2023	22.06.2023	Flat No 2007, Wing 14, Vasant Oasis, Marol, Andheri East, Mumbai-400059	6132278		
Sh. Jasbir Ramesh Singh / Smt. Vandana Jasbir Singh	10.01.2023	19.06.2023	Flat 1303, 13th Floor, Neha Residency, Ramtekdi Road, Tokersey Jivraj Rd, Sewree W, Mumbai-400015	19736382		
Sh. Sanjay Dayaram Kante / Smt. Laxmi Dayaram Kante	28.02.2023	19.06.2023	Flat # 202,2nd Flr B-Wing Bldg # 11 Aster Bldg Agarwal & Doshi Complex Kaul Heritage, Vasai East, 401202	1302387		
Sh. Archana Prabhu / Smt. Prabhakar Shinde	28.02.2023	19.06.2023	Flat No. G-04, Bldg. Durga Laxman Plaza, Pendse Nagar, Behind Anand Building, Dombivali-East, Kalyan, Thane, Maharashtra-421201	2777839		
Sh. Devashish Behera / Smt. Hita Behera	28.02.2023	19.06.2023	Flat No -1005 10th Flr B-Wing Galaxy Heights Motilal Nagar Link Rd Goregaon (W) Mumbai Maharashtra 400062	3489104		
Date: 24-06-2023 Sd/- Place: Mumbai Authorised Officer, IDBI Bank Ltd.						

Public Notice For E-Auction Cum Sale (Appendix – IV A) (Rule 8(6)) Sale of Immovable property mortgaged to IFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plot No.98,Udyog Vihar, Phase–IV,Gurgaon-122015.(Haryana) and Branch Office at: "IIFL House, Sun Infotech Park Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 "under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following propertyries pursuant to the notice sisseud U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

realization of the E-1 in E-3 dues, The Sale will be done by the directisinghed through e-addition platform provided at the website. www.barikeadctions.com.						
Borrower(s) /		d Notice	Description of the Immovab		Date of Physical Possession	Reserve Price
Co-Borrower(s) /Guarantor(s)		d Amount	property/ Secured Asset		31-Oct-2022	Rs.9,00,00,000/-
1.Mr. Laxminarayan Ramchandra     Bhattad		,05,484/-	All that part and parcel of the pribearing Flat No 103, on the 10th admeasuring about 1185 sq. ft. (	Floor,	As On Date 01- June-2023	(Rupees Nine Crore Only)
2.Mr.Bhagwandas Ramchandra Bhattad	Thirty Six	Lakh Five	area) and 1 No. Open Pa	arking	Rs. 13,51,24,277/-	Earnest Money Deposit (EMD)
3.Mr.Harikishan Ramchandra Bhattad 4.Mr.Jayant Bhagwandas Bhattad 5.Mrs.Jayshree Laxminarayan Bhattad 6.Mrs.Manju Harishkumar Bhattad 7.Rmb Event Management Pvt Ltd 8.Mr.Harishkumar Ramchandra Bhattad S (Prospect No 841005, 772238, 769131 & 941120)	fr.Harikishan Ramchandra Bhattad fr.Jayant Bhagwandas Bhattad frs.Jayshree Laxminarayan Bhattad frs.Manju Harishkumar Bhattad kmb Event Management Pvt Ltd fr.Harishkumar Ramchandra attad S ospect No 841005, 772238,		sq. ft. (18'x12') located in the building known as "A-1 Apartment" belonging to		Fifty One Lakh Twenty Four Thousand Two Hundred Seventy Seven Only)	Rs. 90,00,000/- (Rupees Ninety Lakh Only)
Date of Inspection of prope	rty		EMD Last Date		Date/ Time of E-Auction	
17-July-2023 1100 hrs -1400	hrs		19-July-2023 till 5 pm.		21-July-2023 1100 hrs-1	300 hrs.

Mode Of Payment: - EMD payments are to be made vide online mode only. To make payments you have to visit https://www.bankeauctions.com and pay Note: Payment link for each property/ Secured Asset is different. Ensure you are using link of the property/ Secured Asset you intend to buy vide public

action:
For balance payment, upon successful bid, has to pay through RTGS/NEFT. The accounts details are as follows: a) Name of the Account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Chartered Bank, c) Account No:-9902879xxxxx followed by Prospect Number, d) IFSC Code:-SCBL0036001, e) Bank Address: Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001.

Terms and Conditions:-

- For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the paymen details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office.
- 2. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the
- balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the
- The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property. 5. Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed
- terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings.

  For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID: support@bankeauctions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26.
- 7. For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc. call IIFL HFL toll free no.1800 2672 499 from 09:30 hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:-auction.hl@iifl.com.

  Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances.
- Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.
   In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.
- 11. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute i tender/Auction, the decision of AO of IIFI -HFI will be final

15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE RULE 9 SUB RULE (1) OF SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost

Place: Mumbai Date: 24-Jun-2023 Sd/-Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited Sd/-Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited



Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Website: www.unionbankofindia.co.in Email: investorservices@unionbankofindia.ban

**Union Bank** 

#### NOTICE OF 21<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC/OAVM AND INTIMATION OF CUT-OFF DATE

Dear Shareholder

युनियन बैंक

NOTICE is hereby given that the 21st (Twenty First) Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Union Bank of India ("Bank") will be held on Friday, August 4, 2023 at 11.00 am (IST) at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility.

Pursuant to General Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Communication No. F. No. 7/47/2020-BOA dated 10thJuly 2020 of Ministry of Finance, Government of India, the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. Accordingly, in compliance with the applicable provisions of the Regulations, 2015 and the above guidelines, the AGM of the Bank will be held through VC/OAVM.

The Shareholders are further informed that:

- The Notice of the AGM and the Annual Report including the financial statements for the year ended on March 31, 2023 will be sent only by email to all those shareholders, whose email addresses are registered with the Bank or with their respective Depository Participants (DP), in accordance with MCA Circulars and SEBI Circulars. Shareholders can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpos of reckoning the quorum.
- vote through the e-voting system during the AGM will be provided in the detailed Notice of the AGM. The Annual Report along with Notice of AGM will also be hosted on the website of the Bank
- i.e. www.unionbankofindia.co.in and the website of BSE www.bseindia.com and NSE www.nseindia.com.

The instructions for joining the AGM and the manner for participation in the remote e-voting or casting

iv. In case you have not registered your email address and / or not updated your bank account mandate for receipt of dividend with the Bank or Depository Participant, please follow below instructions to registe your email ID / bank account:

**Physical** Shareholding QR Code to get

QR Code to get Form ISR 1Prescribed Form ISR-1 pursuant to SEBI Circular No.SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021 at the following address:

KFin Technologies Limited Unit: Union Bank of India

Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda Hyderabad - 500032 Email: einward.ris@kfintech.com, Toll free: 1800 309 4001

Website: www.kfintech.com

You may also send scanned copy of the request letter to einward.ris@kfintech.com The said form is available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in/

**Demat Holding** 

Form ISR 1

english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx Please contact your Depository Participant (DP) with whom you are maintaining the demat account and register your email address as per the process advised by your DP

The shareholders who have not registered their email id can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink - https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg.aspx The detailed process of participating in the AGM through VC / OAVM is also given in the Notice of the AGM.

- vi. The bank shall dispatch the dividend warrants (if any) in due course to those shareholders who have not registered / updated their bank account mandate
- vii. Payment of Dividend is subject to applicable TDS (if any) as per Income Tax Act,1961 (The Act) as amended. Deduction of TDS, if any, would depend on the residential status of the shareholders and the necessary documents submitted and accepted by the Bank in accordance with the applicable provisions of the Act.
- viii.The Bank is obligated to deduct TDS based on the records available with RTA and no request will be entertained for revision of TDS return thereafter.
- ix. Shareholders are therefore requested to furnish the necessary documents to our Registrar and Share Transfer Agent, M/s KFin Technologies Ltd at https://ris.kfintech.com/form15
- Bank has fixed Friday, 28th July 2023 as the Cut-off date for E-Voting and for determining entitlement of members for dividend of FY 2022-23, if declared at the AGM.

By order of the Board of Directors For UNION BANK OF INDIA

S. K. Dash Company Secretary

Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties ale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-IHFL) Corporate Office at Plo. 98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at: IIFL House, Sun Infotech Park Road No. 16V, Plot No.B-23, Than dustrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 under the Securilisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 002(hereinafter "Act"). Whereas the Authorized Officer ("AO") of IIFL-IHFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issue S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos, with a right to sell the same on "AS IS WHAT SA SI SWHAT IS BASIS" for realization of IIFL-IHFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

Date of Symbolic Reserve Price Date and Amount

Date and Amount

12-Apr-2021

All that part and parcel of the property bearing

Rs.4,42,21,284-(Rupees

Four Crore Forty Two Lakh ft., 1st Floor, Shiv Shivam Oshiwara Adarash

Twenty One Thousand Two CHSL, Plot No. 1 to 180, Survey No. 41(pt) and Possession Rs.3,00,00,000/-Guarantor(s) 11-Apr-2023 (Rupees Three Crore Only (For Property 1) 1. J Seventy One Date of Symbolic (EMD) Rs. 30,00,000/-Hundred Eighty Four Only)

Bid Increase Amount

Bid Increase Amount

Mumbai, 400102, Maharashtra, India. (Super Pictures Pvt I td Rupees Thirty Lakh Only 2. Midcity Heights (Property No. 1) (For Property 2) 3. Mr. Amarjeet Reserve Price Rs. 3,00,000/-Built up area admeasuring 1196 sq ft) Rs. 3,00,000/
Rupees Three Lakh Only (Property No. 1)

Bid Increase Amount Rs. 2 00 000/
Bid Incre Total Outstanding as Jitendra Shukla Rs.2.00.00.000/-I. Mrs. Rita Jitendra Earnest Money Depos Shukla (EMD) Rs. 20,00,000 Rupees Two Lake Only)

Opp Raheja Classic Tower, Varsova Jogeshwari

West, Mumbai, 400102 Maharashtra, India (Built)

Nine Hundred Ninety (Prospect No (Rupees Twenty Lakh Only) (Property No. 2) (Property No. 2) 940755 & 784052) up area admeasuring 784 sq ft) Six Only)

940755 & 784052)

| Property No. 2) | Verst, Mumbal, 400102 Maharashtra, India (Built | Nine Funder Ninery | Six Only) | Chapter | Six Only) | Date of Inspection of property | Date of Date Date of

Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited

#### State Bank of India

BRANCH-SARB THANE (11697):-1st Floor, Kerom, Plot No 112, Circle Road No 22, Wagle Industrial Estate, Thane W 400604, E-mail ID of Branch: sbi.11697@sbi.co.in,

#### **E-AUCTION SALE NOTICE**

SALE OF MOVABLE & IMMOVABLE ASSETS CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.
The undersigned as Authorized Officer of State Bank of India has taken over possession of the following properties u/s 13(4) of the SARFAESI Act. Public at large is informed that e-Auction (under SARFAESI Act, 2002) of the charged property/ies in the below mentioned cases for realisation of Bank's dues will be held on "AS IS WHATES", "AS IS WHATES" and "WHATEVER THERE IS BASIS" and on the terms and conditions specified hereunder.

		·
I	Name of the Borrower (s)	Outstanding dues for Recovery of which Property (ies) / is (are) being sold
	Manisha Yuvraj Kadam a) Flat No.601 & 602, Padma Vishwa Orchid Bldg, Opp Cricket Ground, Beside Oriental Bank of Commerce, Mahatma Nagar, S No.728/1 to 10/13B to 25A/7/40, Plot No.489, Nashik 422001. b) Four Villa Bunglow, P No.8/4, S No.712, near Nandan Sweet,	Rs.86,71,404.00/- (Rupees eighty six lakhs seventy one thousand four hundred four only) as on 14.02.2017 (Plus accrued interest yet to be applied). You are also liable to pay future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental Expenses.
	College Road, D'souza Colony, Nashik 422005	cost, charges etc DN dated 14.02.2017.

Property Details:-Flat No.601 & 602, Padma Vishwa Orchid Apartment, Opp Cricket Ground, Beside Oriental Bank of Commerce, Mahatma Nagar, S No.728/1 to 10/13B to 25A/7/40, Final Plot No.489, Plot No.264, Nashik 422001. Built up area of Flat No.601, 1150 sq ft, Built up area of Flat No.602, 1350 sq ft and Top Terrace area with separate staircase 1550 sq ft and parking area at basement floor as marked on broucher of 25 sq mtr for parking of two vehicle. **Status of Possession**: **Physical** 

Date & Time of e-Auction = Date:- 17.07.2023 Time:- From 1.00p.m. to 3.00p.m. with unlimited exte

Reserve Price: Rs.1,50,00,000.00 Earnest Money Deposit (EMD) = 10% of the Reserve Price i.e. Rs.15,00,000.00

Date and time for submission of request letter of participation / KYC Documents/ Proof of EMD etc. on or before 16.07.2023 up to 5.00 p.m.

Date & Time of inspection of the properties:15.07.2023 from 11.00 a.m. to 12.00 noon

Contact No. Chandrakumar Damodhar Kamble Mobile No. 7875551566, Rajashri M Bhagat Mobile No. 8879616009

Terms and conditions of the e-auction are as under:

The auction will be conducted through Bank's approved service M/s MSTC Ltd at their web portal https://www.mstcecommerce.com. The intending bidders should make their own independent inquiries regarding encumbrances, title of property put on

For detail terms and conditions of the sale .please refer to the link provided in state Bank Of India .the Secured Creditors

Website 1. https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp 2. http://www.sbi.co.in Shri Chandrakumar Damodhar Kamble, Authorized officer, Mobile No 7875551566 and Enquiry Smt Rajashri M Bhaga'

Date: 24.06.2023

Chandrakumar Damodhar Kamble, Authorized Officer State Bank of India

IndiaRF

INDIA RESURGENCE ARC PRIVATE LIMITED Ard Floor, Priamal Tower, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Mumbai 400 013. Tel : 022-68608500 / 68608501, CIN : U67190MH2016PTC272471 atrao Kadam Marg, Lower Parel,

APPENDIX IV-A [PROVISO TO RULE 8(6)]
PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

-auction sale notice for sale of Immoveable Property under SARFAESI Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to borrowers and guarantors, details whereof are mentioned below, that the below described Immoveable Property mortgaged/charged to the India Resurgence ARC Private Limited (India RF/Secured Creditor), the possession of which has been taken by the Authorised Officer of India RF/Secured Creditor will be sold on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" as per the brief particulars mentioned in the schedule.

uo	s per trie planticulars mentioned in the schedule.							
Sr. No	Name of the Borrower/ Co-Borrower/Guarantor/ Mortgagor	Outstanding Amount as on 31.05.2023*	Description of the property and Encumbrances**, if any:	Type and Date of Possession	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD)	Last date for submission of Bid and EMD	Date and Time of E-Auction
1.	Leena Fashion Embroiders Pvt Ltd, Chandan Stores D.D., Karan Nirmal Chhadwa, Leena Nirmal Chhadwa and Nirmal Gagubhai Chhadwa	28,72,39,033 (Rupees Twenty Eight Crore Seventy	Leasehold plot No. 25 & 26, CS no.93 (Part), CTS no. 14, Deonar Ancillary Industrial Estate Sonapur Road, Deonar, Govandi East, Mumbai – 400 043 admeasuring 1,925 sq. mt. along with building thereon, bounded as follows:  North: Adjoining   South: Approach   property/Plot   Road/Sonapur Rd   East: Plot No.27   West: Plot No.24	Physical Possession taken 03.11.2022	Rs. 12,86,00,000 (Rupees Twelve Crore Eighty Six Lakhs Only)	Rs. 1,28,60,000 (Rupees One Crore Twenty Eight Lakh Sixty Thousand Only	, ,	28.07.2023 at 12:00 pm
2.	Shekhar Sumant Dadarkar, Shreerang Gangadhar Vaze	Rs. 5,12,41,971 (Rupees Five Crore Twelve Lakh Forty One Thousand Nine Hundred Seventy One Only)	Shop No. 1 and 2 on First Floor admeasuring 3,520 sq. ft. built up area, situated in Building No. 4. Tilak Nagar Sun View Co-Operative Housing Society bearing Sr. No. 14, CTS No. 16 part, Tilak Nagar, Chembur, Mumbai –400 089.  Encumbrances: Maintenance and Property tax dues of Rs. 72,33,077 as on 01.11.2022 payable to Tilaknagar Sun View Co-Operative Housing Society Limited. The Original Title deeds of both the Properties are filed with the EOW in case number registered as C. R. No. 84 of 2017.	Physical possession dated 09.11.2022	3.72.00.000	Rs. 37,20,000 (Rupees Thirty Seven Lakh Twenty Thousand Only)	27.07.2023 by 6:00 pm	

\*together with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges, etc. incurred up to the date of payment and realisation thereof.

\*\*other than the encumbrances mentioned in the table above, there are no encumbrances on the Immoveable property to the best of knowledge of Authorise.

Officer of Secured Creditor. The intending bidders should do their own independent diligence regardine encumbrances, title of the Immoveable Property. The Authorised Officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third-party claims/ rights/ dues.

TERMS & CONDITIONS E-Auction/bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website https://www.bankauctions.in. Bidders are advised to go through the website for detailed terms & process before taking part in the e-Auction sale proceedings.

website for detailed terms & process before taking part in the e-Auction sale proceedings.

For inspection of the properties & property documents, or any other sale related query, please contact Mr. Harshwardhan Kadam - 9819058003.

The Immovable property will not be sold below the Reserve Price (RP) and accordingly the participating bidders are invited to bid more than the RP and may enhance their offer further during auction process as specified by the agency conducting the auction i.e. M/s 4Closure.

The interested bidders before the last date & time of submission of the Bid shall submit their Earnest Money Deposit (EMD) to Elexa Resolution Advisors LLP, duly authorized service provider of findia RF at their office at AWFIS, Junit no. 304, 3rd Floor, Advisor all inspire BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai-400051 through Demand Draft/NEFT/RTGS/PAY ORDER as follows in favour of "India Resurgence ARC Trust II" payable at Mumbai. HDFC Bank Limited, Account Number-57500000340699, IFSC Code: HDFC0000060. Please note that the Cheques shall not be accepted as EMD amount. Places the didder shall submit conv. of the following decuments with the Authorized Officer, Mr. Akshage, Pag. (Mahille, 1987090165).

Interested bidder shall submit copy of the following documents with the Authorized Officer Mr. Akshaay Rao (Mobile - 9820390162 akshaay.rao@indiarf.com) or Harshwardhan Kadam (Mobile - 9819058003, Email - harshwardhan@elexa.co.in) -Photocopy of Demand Draft/RTGS/NEFT/ PAY ORDER details towards EMD amount

Self-attested photocopies of KYCs and address proof such as PAN Card, Voter ID Card/ Driving License/ Passport/ Aadhar Card etc Bidders Name, Contact No., Address, e-mail ID.

Bidder's account details for online refund of EMD.

Bidding, successfully

Bidder's account details for online refund of EMD.
Post registration (one time) by the bidder, the interested bidder may upload the details of aforementioned documents on the Web Portal.
The intending bidders should register their names at portal https://www.bankauctions.in and get their User ID and password free of cost. It shall be the obligation of the prospective bidder to avail online training on E. Auction from the agency conducting the auction/service provider namely M/s 4Closure, Hyderabad, helpline No: 8142000062/65/66 and e-mail: info@bankauctions.in, Contact Person: Mr. Jaya Prakash Reddy : 8142000064, email: prakash@bankauctions.in and for any property related query may contact Authorised Officer (details given earlier) during the working hours from Monday to Saturday. Neither the Authorised Officer/Secured Creditor nor the agency conducting auction shall be liable for any Internet Network problem and the interested bidders to ensure that they are technically well equipped for participating in the e-Auction process.

Only buyers holding valid KYC, address proof, user ID/ Password and confirmed payment of EMD through any of the mode mentioned above in favor of "India Resurgence ARC Trust II" shall be eligible for participating in the e-Auction process.

During the Online Inter-se Bidding, bidder can improve their bid amount as per the 'Bid Increase Amount' (as indicated by the agency conducting the auction namely Mis 4Closure) or its multiples. In case bid is placed during the last 5 minutes of the closing time of the e-Auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes (each time till the closure of e-Auction process), otherwise, it'll automatically get closed. The bidder who submits the highest bid amount (not below the Reserve Price) on the closure of the e-Auction process shall be declared as the highest bidder by the agency holding auctions. The Authorised Officer post verification of the documents and other information shall thereafter declare such highest bidder as successful bidder and shall confirm the sale in his favour subject to confirmation by the Secured Creditor.

1. The EMD of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The EMD sha

0. The EMD of the successful placer shall be retained towards per control and per control a 2. In the case of default of payment within the prescribed time mentioned above, the amounts deposited by the purchaser shall be forfeited by the Secured Creditor and the property shall be resold by the Secured creditor. All the claims and rights over the property of the defaulting purchaser shall stand forfeited.

3. Once the terms of the payments mentioned above have been complied, the Authorised Officer shall issue certificate of sale of the immovable property in 4. The purchaser shall bear the applicable stamp duties/ additional stamp dutyl transfer charges, fees etc. and also all the statutory/ non-statutory dues, taxes have the control of t

6. The bidders are advised to go through the detailed Terms & Conditions of e-Auction Process available on the web portal of https://www.bankauctions.in before submitting their bids and taking part in the e-Auction. 7. Special Instructions: Bidding in the last moment should be avoided. Neither the Secured Creditor nor Service provider will be responsible for any technical lapse/power or internet failure etc. In order to avoid such contingent situations bidders are requested to ensure that they are technically well equipped and have all alternatives such as power supply back-up etc., so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the online Inter-se

8. Notwithstanding anything to the contrary contained hereinabove, if the borrower has paid the outstanding amount along with future interest computable till the date of payment in full any time before the date of publication of this notice for public auction, in such an event in terms of section 13 (8) of SARFAESIAct, 2002, the Secured Creditor shall not transfer the Secured Assets by way of lease, assignment or sale.

Sd/-Sd/-Authorised Officer Date: 22.06.2023 Place: Mumbai India Resurgence ARC Private Limited

[See Regulation-15(1) (a)]/16(3)

DEBT RECOVERY TRIBUNAL MUMBAI (DRT 2) 3rd Floor, Colaba, Telephone Bhavan, Colaba Market, Mumbai- 400 005 (5th Floor, Scindia House Ballard, Mumbai- 400001)

Case No.: OA/320/2022 Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure ) Rules, 1993.

Exh. No.: 12

BANK OF MAHARASHTRA MANDAR WAMAN NERURKAR & ORS

NAME & ADDRESS OF DEFENDANTS (1) MANDAR WAMAN NERURKAR (Borrower)

B7 Suprabhat Apartment, 3rd Floor, Davanmandir Road, Dadar (West), Mumbai (2) SUMAN WAMAN NERURKAR (Borrower)

B7 Suprabhat Apartment, 3rd Floor, Dayanmandir Road, Dadar (West), Mumbai 3) RAMOLA MANDAR NERURKAR (Guarantor) B7 Suprabhat Apartment, 3rd Floor, Dayanmandir Road, Dadar(West), Mumbai

SUMMONS WHEREAS, OA/320/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 25/08/2022.

Whereas this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of

Whereas the service of summons could not be completed in ordinary manner and whereas the Application for substituted service has been allowed by this Hon'ble Tribunal. n accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under:-

Rs. 51,96,235.24/- Rs. (application along with copies of documents etc. annexed).

To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;

To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;

ii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; y) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course

of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the Origina Application without the prior approval of the Tribunal: You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale

proceeds in the account maintained with bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 19/07/2023 at 11:00 am failing which the

application shall be heard and decided in your absence. ven under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 13/06/2023.



Debts Recovery Tribunal No. 2 Mumbai

Ow.No. MDRT-2/176/2023 Date: 22/08/2023 REGD.A/D/DASTI/AFFIXATION/BEAT OF DRUM &

R.P. No. 79/18

PUBLICATION/NOTICE BOARD OF DRT SALE PROCLAMATION OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, MUMBAI MTNL Bhavan, 3<sup>rd</sup> Floor, Colaba Market, Colaba, Mumbai.
DATED: 17.05.2023

PROCLAMATION OF SALE UNDER RULES 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993. Union Bank of India, Malad (West) Branch ]... Certificate Holder

CD - 1: Mrs. Kejal Ni tin Gala, Flat No. 102, 1st Floor, Building No.C-4, Shanti Vihar, 100 ft D.P. Road, Opp. P.G. Vora School, Mira Road (East), District Thane 401 107. **CD - 2:** Mr. Nitin Dhanji Gala, Flat No.102, 1<sup>st</sup> Floor, Building No.C- 4, Shanti Vihar, 100 ft D.P. Road, Opp. P.G. Vora School, Mira Road (East), District Thane 401 107. Whereas Hon'ble Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal No. II Mumbai has drawn up the

Recovery Certificate in Original Application No 640 of 2017 for recovery of Rs. 20,63,451.00 with interest from the Certificate Debtors and a sum of Rs. 34.53.076.00 is recoverable rogether with further interest and charges as per the Recovery Certificate / Decree. And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule

pelow in satisfaction of the said certificate. And whereas a sum of Rs. 20,63,451.00 along with pendent-lite and further interest @ 12.30% p.a. with monthly rests from the date of filing of application i.e. 29.12.2016 till payment and/or realization from Cds.

lotice is hereby given that in absence of any order of postponement, the said propert shall be sold on 26.06.2023 between 02:00 PM to 03:00 P.M. (with auto extension clause in case o oid in last 5 minutes before closing, if required) by **e-auction and bidding shall take place** through "On line Electronic Bidding" through the website of M/s e-procurement Technologies Ltd, https://drt.auctiontiger.net having address at B-704, Wall Street-II, Opp Orient Club Near Gujarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad 380 006, Gujarat (India) Phone Nos. 079 68136841 /55 /51, 079-68136800. Contact Person: Mr. Praveenkumar Thevar (Mobile +91 9722778828).Email address-praveen.thevar@auctiontiger.net or support@auctiontiger.net. or further details contact: Mr Chandragiri Raju, Manager

The sale will be of the property of the C.D above named as mentioned in the schedule pelow and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have beer ascertained, are those specified in the schedule against each lot / property. The property will be put up for the sale in the lots specified in the schedule. If the amount to

e realized is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale also be stopped if, before any lot is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof is given to his satisfaction tha the amount of such certificate, interest and costs have been paid to the undersigned. No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold

The sale shall be subject to the conditions prescribed in Second Schedule of the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under and to the further following conditions The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the

nformation of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error nis-statement or omission in this proclamation. . The reserve price below which the property shall not be sold is Rs. 49,88,000/- (Rupees

Forty Nine Lakhs Eighty Eight Thousand only) 2. The amount by which the bid is to be increased shall be Rs. 50,000/-(Rupees Fifty thousand only). In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.

3. The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot. It shall be in the discretion of the undersigned to decline/acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. . The public at large is hereby invited to bid in the said E-Auction. The offers in a sealed

envelope along with demand draft / pay order of any Nationalized Bank / Scheduled Bank along with EMD Amount Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakhs only) should be deposited with the undersigned not later than by 4.30 p.m. on 21.06.2023. The demand draft/pay order should be drawn in favour of the "Recovery Officer, DRT-II, Mumbai in R.P No. 79 of 2018. The above amount/demand draft/pay order shall be refunded to the unsuccessful bidders after due verification / submission of KYC documents. Attested photocopy of TAN/PAN card, Address Proof, Demand Draft/Pay Order shall be

uploaded with the online offer. The last date for submission of online offers alongwith EMD

and the other information/details is 21.06.2023 by 4.30 p.m. The Physical inspection of the

properties may be taken between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. w.e.f. 19.06.2023 at the property 5. The copy of PAN card, Address proof and identity proof, E-mail ID, Mobile No. and declaration if they are bidding on their own behalf or on behalf of their principals. In the latter case, they shall be required to deposit their authority and in default their bids shall be rejected. In case of the company copy of resolution passed by the board members of the company or any other document confirming representation /attorney of the company and the receipt/counter foil of such deposit should reach to the said service provider of CH Bank by e-mail or otherwise by the said date and hard copy shall be submitted before the Recovery Officer-II, DRT-II, Mumbai on 21.06.2023 upto 4.30 p.m. In case of

failure, bid shall not be considered. The successful bidder shall have to deposit 25% of his final bid amount after adjustment of EMD by next bank working day i.e. by 4.30 P.M. in the form of demand draft / pay order in favour of the "Recovery Officer, DRT-II, Mumbai in R.P No. 79 of 2018 or directly by way of RTGS/NEFT in the Account No. 30043253890 with State Bank of India, Fort Market Branch, Mumbai, IESC Code No: SBIN0005347 of

Recovery Officer, DRT-II, at Mumbai. Once the bid is submitted it is mandatory for the bidder (s) to participate in the bidding process of the e-auction by logging in on the e-auction agency portal, failing which the EMD shall be forfeited to the Government, if the undersigned thinks fit.

. The purchaser shall deposit the balance 75% of final bid amount on or before 15th day from the date of sale of the property. If the 15th day is Sunday or other Holiday, then on the first bank working day after the 15th day by prescribed mode as stated in para 6 above. In addition to the above, the purchaser shall also deposit poundage fee with Recovery Officer-II, DRT-II @ 2% upto Rs.1,000/- and@ 1 % of the excess of said

amount of Rs.1,000/-through DD in favour of Registrar, DRT-II, Mumbai. n case of default of payment within the prescribed period, the deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or the amount deposited. The property shall be resold, after the issue of fresh proclamation of sale. Further the purchase shall also be liable to make good of any shortfall or difference between his final bid amount

and the price for which it is subsequently sold. he property is being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" AND "AS IS WHAT IS BASIS". The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time without assigning any reason.

No. Description of the property to Revenue assessed Details of any Claims, if any, which have

of lots	be sold with the names of the co-owners where the property belongs to defaulter and any other person as co-owners	upon the property or any part thereof		been put forward to the property, and any other known particulars bearing on its nature and value
1.	Flat No. 102, 1*Floor, admn. 421 sq.ft. (carpet area), in the building no. C-4 known as 'Shanti Vihar' of the society known as 'Shanti Vihar Building No. C-3/4 Cooperative Housing Society Ltd.', constructed on piece and parcel of land bearing Survey No. 743(P) & 744(P), situated, lying and being at village Bhayander, Taluka & District Thane.	Not available	Mortgaged property	Not available

Given under my hand and seal on this 17th day of May, 2023



Recovery Officer DRT-II, Mumbai

Place: Mumbai Date: 21.06.2023

Bid Increment Amount = Rs.50.000.00

EMD to be transferred /deposited by bidder in his /her/their own wallet provided by M/s MSTC Ltd. On https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp by means of NEFT

auction and claims/ rights affecting the property prior to submitting their bid. In this regard, e-auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the Bank. The successful purchasers / bidders are required to deposit remaining amount either through NEFT in the Account No 31049575155, SARB THANE PAYMENT ACCOUNT (Unit Name), IFSC Code: SBIN0061707 or by way of demand draft drawn in favour of State Bank of India A/c (unit name), SARB THANE PAYMENT ACCOUNT, 11697 (Name of the Branch) drawn on any Nationalized or Scheduled Bank.

Place : Thane

निम्नस्वाक्षरीकारांनी आयसीआयसीआय बँक लिमिटेडचे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस् ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ अन्वये आणि कलम १३(१२) सहवाचता सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून सदर सूचना प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांत सूचनेत नमूद केलेली रक्कम चुकती करण्यासाठी खालील नमूद कर्जदारांना (दीवाण हाऊसिंग फायनान्स लि. द्वारे आयसीआयसीआय बँकेला देण्यात आलेल्या अभिस्तांकना अंतर्गत) डीएचएफएल आणि कर्जदार यांच्या दरम्यान झालेल्या कर्ज कराराला अनुसरुन गृहकर्ज सुविधा मंजूर करण्याच्या संदर्भात तारणाच्या अंमलबजावणीच्या संबधातील मागणी सूचना जारी केली आहेत. कर्जदारांनी सदरह रक्कम चुकती करण्यास कसूर केलेली आहे म्हणून कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेला सूचना याद्वारे देण्यात येते की, निम्नस्वाक्षरीकारांनी खालील नमूद तारखेरोजीस सदरहू अधिनियमाच्या कलम १३(४) सहवाचता सदरहू नियमावलीच्या नियम ८ अन्वये त्याला/तिला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील वर्णिलेल्या मिळकतीचा कब्जा घेतलेला आहे. विशेषत: कर्जदार अणि सर्वसामान्य जनतेला याद्वारे सावधान करण्यात येते की, त्यांनी सद्रह् मिळकतीच्या

दवघ	विचा व्यवहार कर नयं आणि सदरहू मळकताच्या देवधवाचा काणताहा व्यवहार हा आयसाआयसाआयं बक ।लामटंडच्या प्रभाराच्या अधान राहाल.						
अ.	कर्जदाराचे नाव/क्रमांक (कर्ज खाते	मिळकतीचे वर्णन/	मागणी सूचनेची	शाखेचे			
क्र.	क्रमांक (डीएचएफएल ओल्ड लॅन आणि	कब्जाची तारीख	तारीख/ मागणी	नाव			
l	आयसीआयसीआय न्यु लॅन)		सूचनेतील रक्कम (रु.)				
۶.	जगदिश अरूण कदम/ सोनाली जगदिश	फ्लॅट क्र. १०४, १ला मजला, स्टील्ट वरील पार्किंग,	जुलै ०८, २०२१	रत्नागिरी			
	कदम/ क्युझेडआरटीजी००००५०१४०३८/	तळमजला, तेजस रेसिडेन्सी, स.क्र. १३१९/२,	₹.				
	२५९००००३९९	१३१९/३, शिक्षक कॉलनी समोर, देखन रोड, महाराष्ट्र,	९,८९,७९७.००/-				
ll		रत्नागिरी-४१५६०५/ जन २१, २०२३.					

वरील नमूद कर्जदार/हमीदार यांना रक्कम चुकती करण्यासाठी याद्वारे ३० दिवसांची सूचना देण्यात येत आहे, अन्यथा सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००५ च्या नियम ८ आणि ९ अंतर्गत तरतुर्दीनुसार सदर सूचना प्रसिध्दी तारखेपासून ३० दिवसांच्या समाप्तीनंतर गहाण मिळकतीची विक्री करण्यात येईल

दिनांक : जुन २३, २०२३ आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड



आयडीबीआय बँक लिमिटेड रिटेल रिकव्हरी डिपार्टमेंट, २ रा मजला, मित्तल कोर्ट, बी-विंग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१

दूर क्र. ०२२-६१२७ ९३६५/६१२७ ९२८८/६१२७ ९३४२ जोडपत्र Ⅳ (नियम ८(१)

#### कब्जा सचना (स्थावर मिळकतीकरीता)

ज्याअर्थी, निमन्स्वाक्षरीकारांनी आयडीबीआय बैंक लिमिटेड चे प्राधिकृत अधिकारी या नात्याने सिक्युरिटायझेशन ॲन्ड एक्सिट क्यानिकार आफ फायनात्रिशल ॲसेटस् ॲन्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ (५४ सन २००२) आणि कलम १३(१२) सहवाचता सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्यये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मागणी सूचना जारी करून कर्जदार यांस सूचनेतील एकूण नमूद् रक्षम या रकमेची परतफेड सदर सूचना प्राप्तीच्या ६० दिवसांत करण्यास सांगितले होते. रकमेची परतफेड करण्यास कर्जदार असमर्थ ठरल्याने, कर्जदार आणि सर्वेसामान्य जनतेस याद्वारे सूचना देण्यात येते की, निम्नस्वाक्षरीकारांनी खाली वर्णन करण्यात आलेल्या भिळकतीचा ताबा त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून सिक्युरिटी इंटरेस्ट (इन्फोर्समेंट) रुल २००२ च्या रुल ८ सहवाचता ॲक्टचे कलम १३ चे उप-कलम (४) अन्वये घेतला आहे. तारण मतांच्या विमोचनाकरिता उपलब्ध वेळेत ॲक्टचे कलम १३ चे उप-कलम (४) च्या तरतुदी नुसार कर्जदारांचे लक्ष वेषण्यात येत आहे. विशेषतः कर्जदार आणि सर्वसमान्य जनतेस याद्वारे इशारा देण्यात येतो की, सदर मिळकतीशी कोणताही व्यवहार करू नये आणि ादर मिळकतीशी करण्यात आलेला कोणताही व्यवहार हा आयडीबीआय बँक लिमिटेड च्या खालील नमुद रक्कम आणि त्यावरील व्याजाच्या भाराअधीन राहील

कर्जदार/मिळकतीचे मालक/हमीदाराचे नाव	मागणी सूचनेची तारीख	सांकेतिक कब्जाची तारीख	मिळकतीचा पत्ता	मागणी सूचनेमध्ये दावा केलेली रक्कम
श्री. अर्जुन राजेंद्र खैरालिया / श्री. राजेंद्र दिछ्ठोन खैरालिया	१०.१.२३	२३.०६.२०२३	फ्लॅट क्र. १०२, १ला मजला, इमारत क्र. ३, हिल व्ह्यू अपार्टमेंट, मोहपे, रायगड, पनवेल, नवी मुंबई -४१०२०६	१८४८००७
श्री.जगजीत सिंग शरद / श्रीम. संघ्या सिंग	२८.२.२३	१९.०६.२०२३	पलॅट क्र. ४०३ एच विंग ४ था मजला शुभ वस्तु हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स इमारत क्र. ५ टाईप डी प्लॉट क्र. ५, हॉटेल परिवार स्वागत समोर, मुंबई नाशिक हायवे लगत, वासिंद पश्चिम, ठाणे -४२१६०४	१२४५६९२.५२
श्री. संजीवकुमार झा/ श्रीम. सविता झा	२८.२.२३	१९.०६.२०२३	पलॅट १०३, १ला मजला, इमारत एनजी बावेनो, गोल्डन नेस्ट सर्कल, मीरा भाईंदर, भाईंदर - पूर्व, ठाणे, महाराष्ट्र - ४०११०५	५०९५२५४
श्री.विनय कृष्णा / श्रीम. मीनू कृष्णा	२८.२.२३	१९.०६.२०२३	फ्लॅट क्र. १०१, १ला मजला, रेगल सीएचएस लि. पूनम सागर कॉम्प्लेक्स जवळ, सेक्टर क्र. १० समोर, मीरा रोड – ठाणे, महाराष्ट्र –४०१३०१	१९७४३३७
श्रीम. ममता भीमा पवार / श्री.गणेश भास्कर गायकवाड	२८.२.२३	२२.०६.२०२३	फ्लॅट क्र. २००७, विंग १४, वसंत ओएसिस, मरोळ अंधेरी पूर्व, मुंबई - ४०००५९	६१३२२७८
श्री.जसबीर रमेश सिंग /श्रीम. वंदना जसबीर सिंग	१०.१.२३	१९.०६.२०२३	फ्लॅट १३०३, १३वा मजला, नेहा रेसिडेन्सी, रामटेकडी रोड, टोकर्सी जीवराज रोड, शिवरी पश्चिम, मुंबई - ४०००१५	१९७३६३८२
श्री.संजय दयाराम कांटे / श्रीम.लक्ष्मी दयाराम कांटे	२८.२.२३	१९.०६.२०२३	पलॅट # २०२, २रा मजला बी- विंग इमारत # ११ अस्टर इमारत अग्रवाल आणि दोशी कॉम्प्लेक्स कौल हेरिटेज, वसई पूर्व, ४०१२०२	१३०२३८७
श्रीम.अर्चना प्रभू/ श्री.प्रभाकर शिंदे	२८.२.२३	१९.०६.२०२३	फ्लॅट क्र. जी-०४, इमारत दुर्गा लक्ष्मण प्लाझा, पेंडसे नगर, आनंद बिल्डिंगच्या मागे, डॉबिवली - पूर्व, कल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ २०१	२६७७७५
श्री. देवाशिष बेहरा / श्रीम. हिता बेहरा	२८.२.२३	१९.०६.२०२३	फ्लॅट क्र१००५ १०वा मजला, बी-विंग, गॅलेक्सी हाइट्स मोतीलाल नगर लिंक रोड गोरेगाव (प) मुंबई महाराष्ट्र ४०००६२	\$8 <b>८</b> ९१०४

ठिकाण: मुंबई दिनांक: १५.०३.२०२३

प्राधिकृत अधिकारी, आयडीबीआय बँक लि



#### इंडियन ओव्हरसीज बॅक

ॲसेट रिकव्हरी मॅनेजमेंट शाखा

मेकर टॉवर ई, ५ वा मजला, कफ परेड, मुंबई - ४००००५

दूरध्वनीः ०२२-२२१७४१७५, ०२२-२२१७४११८, ई मेलः iob1998@iob.in, वेबसाईटः www.iob.in, स्थावर मिळकतीच्या विक्रीकरिता

#### ई-लिलावाकरिता जाहीर सूचना

सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेट ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरीटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ सहवाचता सिक्युरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ (क्र. ५४ सन २००२) अन्वये बँकेकडे गहाण स्थावर मिळकतीची विक्री.

ज्याअर्थी, इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी येथील खालील तपशिलानुसार बँकेची थकबाकी अधिक व्याज आणि खर्चाच्या वसुलीकरिता 'जे आहे जेथे आहे तत्त्वाने' आणि 'जे आहे जसे आहे तत्त्वाने' त्या विक्रीच्या अधिकारासह खालील कर्ज खात्यामध्ये सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स २००२ च्या कलम १३(२) अंतर्गत जारी केलेल्या सूचनेनुसार खालील मिळकर्तीचा सांकेतिक कब्जा घेतला आणि ज्याअर्थी त्यांनी थकबाकी चुकती करण्यास कसूर केल्यामुळे निम्नस्वाक्षरीकारांनी सदर ॲक्टच्या कलम १३(४) अन्वये त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून सदर मिळकतीच्या विक्रीद्वारे बँकेच्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी प्रस्तावित आहेत. विक्री वेबपोर्टल www.mstcecommerce.com/ येथे पुरविलेल्या ई-लिलाव प्लॅटफॉर्ममार्फत निम्नस्वाक्षरीकारांद्वारे करण्यात येईल.

कर्जदाराचे नाव आणि पत्ता : मे. लकी वेगना लाईफस्टाईल प्रायव्हेट लिमिटेड, जिचा नोंदणीकृत पत्ता कार्यालय क्र. १०७, १ला मजला, बिल्डिंग क्र. सी/१०, पारसनाथ कॉम्प्लेक्स, गाव वाल, अंजुरफाटा-मानकोली रोड, भिवंडी, भिवंडी-४२१३०२. हमीदार/गहाणदाराचे नाव आणि पत्ता:-

**१. श्री. अभिषेक अरविंद वर्मा,** श्री. अरविंद वर्मा यांचा मूलगा, पत्ता (ए). ए-३०४, ३रा मजला, ऑबेरॉय सप्लेंडर, जेव्हीएलआर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००६० आणि (बी). २-८६, सिता भवन, नावो मोहल्लो, लेकव्ह्यू गार्डन पिपलोड, सिध्दिविनायक मंदिर समोर, उधना, सरत शहर, गजरात-३९४२१०.

२. श्रीम. नीलम भरत रेशमवाला, अरविंद वर्मा यांचा मुलगा, पत्ता (ए). ए-३०४, ३रा मजला, ऑबेरॉय सप्लेंडर, जेव्हीएलआर अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००६० आणि (बी). २-८६, भरत रेशमवाला यांची मुलगी सिता भवन, नावो मोहल्लो, लेकव्ह्यू गार्डन पिपलोड, सिध्दिविनायक मंदिर समोर, उधना, सुरत शहर, गुजरात-३९४२१०.

एनपीए ची तारीख : ३१.१२.२०१९ मागणी सूचनेची तारीख: ०६.०८.२०२०

मागणी सूचनेतील दावा केलेली थकबाकी: खर्च, प्रभार इ. सह संविधानिक दराने आणि आधारे पुढील व्याजासह एकत्रित देय २१.१२.२०१९ रोजीस रु. ५,२१,२४,०६८.१६/- (रुपये पाच कोटी एकवीस लाख चोवीस हजार अड्सप्ट आणि पैसे सोळा मात्र). कब्जा सूचनेची तारीख : १७.०२.२०२१

कब्जा सूचनेतील दावा केलेली थकबाकी: पुढील व्याज आणि खर्चासह ३१.०१.२०२१ रोजीस रु. ५,०६,००,५५६.७७/-रुपये पाच कोरी सदा लाख पाचशे छत्पन आणि पैसे सत्य

🌞 स्थानिक स्वराज्य संस्थेची उर्वरित थकबाकी (मिळकत कर, पाणी, सिवरेज, वीज बिले इ.): **बँकेला ज्ञात नाही** 

#### ई-लिलावाचा तपशिल मिळकतींचे वर्णन

संच-१

श्री. अभिषेक अरविंद वर्मा यांच्या नावे असलेल्या तळ मजला, ए विंग, पूजा अभिषेक बिल्डिंग (वेस्), वेस् मेन रोड, सुरत, गुजरात-३९५००७ येथे स्थित मोजमापित अंदाजे ३६० चौ.फू. दुकान क्र. १ मधील मिळकतीचे सर्व ते भाग आणि विभाग. संच-२

श्री. अभिषेक अरविंद वर्मा यांच्या नावे असलेल्या तळ मजला, ए विंग, पूजा अभिषेक बिल्डिंग (वेसु), वेसु मेन रोड, सुरत, गुजरात-३९५००७ येथे स्थित मोजमापित अंदाजे ३९५ चौ.फू. दुकान क्र. २ मधील मिळकतीचे सर्व ते भाग आणि विभाग. संच-3

मे. लकी वेगोना लाईफस्टाईल प्रायव्हेट लिमिटेड च्या नावे असलेल्या सर्व्हे क्र. ७८/४, गाव वाल, तालुका भिवंडी धारक जिमनीवर स्थित २रा मजला, बिल्डिंग क्र. डी-४, पारसनाथ कॉम्प्लेक्स येथे स्थित आरसीसी युनिट क्र. २०८ (मोजमापित २९२५ चौ.फू.) आणि युनिट क्र. २०९ (मोजमापित ३१२५ चौ.फू.) मधील मिळकतीचे सर्व ते भाग आणि विभाग.

तपशिल	संच−१	संच-२	संच-३
ई-लिलावाची तारीख आणि वेळ	२८.०७.२०२३	२८.०७.२०२३	२८.०७.२०२३
	स. ११.०० ते दु. १.००	स. ११.०० ते दु. १.००	स. ११.०० ते दु. १.००
राखीव किंमत	रु. ४३,१९,०००/-	रु. ४७.५०,०००/-	रु. १,५०,९०,०००/-
	(१% टीडीएस सह)	(१% टीडीएस सह)	(१% टीडीएस सह)
इसार अनामत रक्कम (इअर)	रु. ४,३१,९००/-	रु. ४,७५,०००/-	ह. १५,०९,०००/-
इअरचा भरणा	अटी आणि शर्तींच्या पॉईंट	अटी आणि शर्तींच्या पॉईंट	अटी आणि शर्तींच्या पॉईंट
	क्र. २ व ३ मध्ये नमुद नुसार	क्र. २ व ३ मध्ये नमुद नुसार	क्र. २ व ३ मध्ये नमुद नुसार
बोली वाढविणे	रु. १०,०००/−	रु. १०,०००/-	रु. १०,०००/-
मिळकतीचे निरिक्षण	आगाऊ वेळ ठरवुन	आगाऊ वेळ ठरवुन	आगाऊ वेळ ठरवुन
इअरसह बोलीसाठी ऑनलाईन अर्ज	२६.०६.२०२३ पासून	२६.०६.२०२३ पासून	२६.०६.२०२३ पासून
सादर करणे सुरू			
इअरसह बोलीसाठी ऑनलाईन	ई-लिलावाच्या पुर्वी	ई-लिलावाच्या पुर्वी	ई-लिलावाच्या पुर्वी
अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख			
ज्ञात भार काही असल्यास	भार माहित नाही	भार माहित नाही	भार माहित नाही
* स्थानिक स्वराज्य संस्थेची	बँकेला माहित नाही	बँकेला माहित नाही	बँकेला माहित नाही
उर्वरित थकबाकी (मिळकत कर,			
पाणी, सिवरेज, वीज बिले इ.)			

#### \*सांविधानिक थकबाकी पेक्षा बँकेच्या थकबाकीला प्राधान्य

१. विक्री ही सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स २००२ मध्ये विहित अटी आणि शर्ती आणि पुढील अटींच्या अधीन राहील. लिलाव विक्री पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/ मार्फत ''ई-लिलावामार्फत ऑनलाईन'' करण्यात येईल.

- २. इच्छुक बोलीदार/खरदेदीदारांना त्यांच्या मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल आयडी वापर करून पोर्टल (https://www.mstcauction.com) वर नोंदणी करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. पुढे त्यांना आवश्यक केव्हायसी कागदपत्र अपलोड करण्याची विनंती करण्यात येते. एकदा केव्हायसी कागदपत्र ई-लिलाव सेवा पूरविठादारांद्वारा तपासले (२ कामकाजी दिवस लागू शकतात), इच्छुक बोलीदार/खरेदीदारांनी पोर्टलमध्ये ई-लिलावाची तारीख आणि वेळेपूर्वी त्यांच्या ग्लोबल ईअर वॉलेट मध्ये ऑनलाईन मोड वापरून इअर रक्कम हस्तांतर करायची आहे. पोर्टल मधील ई-लिलाव दिनांक आणि वेळ आधी ११.०२.२०२२ रोजी त्याच्या ग्लोबल ईअर वॉलेट मध्ये हस्तांतर करावेत. नोंदणी, केवायसी दस्तावेजांची पडताळणी आणि वॉलेटमध्ये इअरचे हस्तांतर लिलवाच्या पूर्वी पुरेशा आधी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- ३. वरील नमुद इसारा अनामत रक्कम (इअर) रक्कम ही बोलीदारांच्या ग्लोबल इएमडी वॉलेट मध्ये एनईएफटी/आरटीजीएस (https://www.mstcecommerce.com) कडून चलन जनरेट केल्यानंतर) ऑनलाईन भरणा करायचे आहे. एनईएफटी/आरटीजीएस हस्तांतर कोणत्याही शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकेकेडून केले जाऊ शकते. इअरचे प्रदान कोणत्याही इतर मार्गामे जसे की चेक स्विकारले जाणार नाही. बोलीदारांनी आवश्यक इअर ऑनलाईन भरणा न केल्यास त्यांना 'ई-लिलावामध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. सदर इसारा अनामत रक्कमेवर कोणतेही व्याज देय नाही.

सदर सर्वसामान्य जनतेकड्न निविदा मागवुन ई-लिलाव विक्री करण्याबाबत सरफैसी ॲक्ट, २००२ च्या नियम ८(६) अंर्तगत वरील कर्जाचे कर्जदार/गहाणवटदार/हमीदार यांना ३०दिवसांची सूचना आहे. संपूर्ण विक्री सूचना आणि सर्व अटी आणि शर्तीकरिता कृपया आमचे वेब पोर्टल www.iob.in आणि https://ibapi.in ला भेट द्या. मिळकतीचे निरिक्षण/ई-लिलावा संबंधित पढील तपशिलाकरिता इच्छुक बोलीदार श्री. राहुल गौतम (मोबा. ९४५७०५३०९९) किंवा श्री. सुधांशु त्रिपाठी (मोबा. क्र. ७४०८८९६९७९), इंडियन ओव्हरसिज बँक, एआरएमबी शाखा, मुंबई, फोन: ०२२-२२१७४११८/१७५ यांना संपर्क करु शकतात.

दिनांक: २२.०६.२०२३ प्राधिकृत अधिकारी इंडियन ओव्हरसीज बँक ठिकाण : मुंबई



**१० नव अशक्ति**। मुंबई, शनिवार, २४ जून २०२३

विशेष मालमत्ता वसुली व्यवस्थापन शाखा

मेझानाईन फ्लोर, बँक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, ७०/८० , एम. जी. रोड, फोर्ट, मुंबई -४०० ००१. फोन: ०२२ -२२६७३५४९ ईमेल: SARM.Mumbaisouth@bankofindia.co.ii

#### ताबा सूचना नियम ८ (१) (स्थावर मिळकतीसाठी)

ज्याअर्थी. अधोस्वाक्षरी केलेले हे सिक्यरिटायझेशन अँड रिकन्टक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट अँड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यरिटी इंटरेस्ट कायदा. २००२ अन्वये बँक ऑफ इंडियाचे अधिकत अधिकारी आहेत आणि सुरक्षा हित (अंमलबजावणी) च्या नियम ३ सह वाचलेल्या कलम १३ (१२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करत आहेत. नियम, २००२ (२००२ चा क्रमांक ३) ने मागणी सूचना जारी केली दिनांक: १७.०१.२०१७ कर्जदार/जामीनदार **मे. शुभम डेव्हलपर्स, श्री. फैयाज** शेख, श्री. उमर शेख, श्री. लकौल्ला शेख, श्री. अब्दुल अझीझ शेख आणि श्री. शहजाद खान यांनी सुचने मध्ये नमूद केलेली रक्कम एकूण रुपये १०,३७,७३,६५९.४५ (रुपये दहा कोटी सदतीस लाख त्र्याहत्तर हजार सहाशे एकोणपन्नास रुपये आणि पंचेचाळीस पैसे फक्त) जे ही सचना मिळाल्यापासन ६० दिवसांच्या आत जमा करणे आवश्यक आहे . यात कर्जदार/जामीनदार रक्कम परत करण्यात अयशस्वी ठरल्याने, याद्वारे कर्जदार/जामीनदार आणि सामान्यत: जनतेला ही सचना देण्यात आली आहे की खाली स्वाक्षरीदाराने या कायद्याच्या कलम १३ (× ) च्या अंतर्गत उक्त नियमांचा नियम ८ अन्वये खाली वर्णन केलेल्या मालमत्तेचा मख्य मेटोपॉलिटन मॅजिस्टेट. एस्प्लानेड. मुंबई यांनी पारित केलेल्या आदेशानुसार दिनांक १९ जून २०२३ रोजी भौतिक ताबा घेतला आहे.त्यसाठी सरफेसी कायदा २००२ च्या कलम १४(१) चा. दिनांक ०३.०४.२०१९ आणि दिनांक २५.०७.२०२२ रोजी अंतर्गत वर्ष आणि सी सी क्र. ६८१ /एस ए /२०१७ आणि ५०१ /मिस्क /२००२ अनक्रमे

विशेषतः कर्जदार/सुरक्षित कर्जदार आणि सर्वसाधारणपणे जनतेला सावध आणि सूचित केले जाते की सदर मालमत्तेचा व्यवहार कोणीही करू नये आणि ह्या मालमत्तेचा कोणताही व्यवहार बँक ऑफ इंडियाच्या रुपये १०,३७,७३,६५९.४५ (रुपये) दहा कोटी सदतीस लाख त्र्याहत्तर हजार सहाशे एकोणपन्नास रुपये आणि पंचेचाळीस पैसे फक्त) रकमेच्या आणि अधिक त्यावरील व्याज. शुल्काच्या अधीन असेल. सुरक्षित मालमत्तेची पूर्तता करण्यासाठी, उपलब्ध वोळेच्या संदर्भात, सरफेसी

कायद्याच्या कलम १३ च्या उप-कलम (८ ) च्या तरतुर्दींकडे कर्जदाराचे लक्ष आमंत्रित केले आहे.

<u>\*\*\*\*</u>स्थावर मालमत्तेचे वर्णन \*\*\*\* मालमत्तेचा तो सर्व भाग व विभाग सर्वेक्षण क्रमांक ४३६, हिसा क्रमांक १६, सीटीएस क्रमांक १४९९ ते १५५० महसूल गाव कोलेकल्याण, वाकोला, तालुका- अंधेरी, एच-पश्चिम वॉर्ड क्रमांक ७२४७ (२ बी ) १०६१ चौरस यार्ड म्हणजे ८८७.२ चौरस मीटर किंवा जवळपास त्याभोवती असलेल्या ३१ संरचनेसह त्यावरील ''अम्मा'ज मेन्शन'' (आधी हरी निवास नावाने ओळखले जाणारे) म्हणून ओळखले जाते. विंग ए : १०१ विक्रीयोग्य क्षेत्र २४८० चौरस फूट,

नोंदणी जिल्ह्यात: मुंबई उपनगरी आणि मस्जिद रोड, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई येथे स्थित आहे. मालमत्तेचा तो सर्व भाग व विभाग सर्वेक्षण क्रमांक ४३६, हिसा क्रमांक १६, सीटीएस क्रमांक १४९९ ते १५५० महसूल गाव कोळेकल्याण, वाकोला, तालुका- अंधेरी. एच-पश्चिम प्रभाग क्रमांक ७२४७ (२ बी ) १०६१ चौरस याडर्स म्हणजेच ८८७.२ चौरस मीटर किंवा त्याभोवती असलेल्या ३१ संरचनेसह ''अम्मा'ज मेन्शन'' (पूर्वी हरि निवास म्हणून ओळखले जाणारे) विक्री बिलिंडग विंग ए मध्ये: २०१ विक्रीयोग्य क्षेत्र, २०४० चौरस फुट क्षेत्रफळ. नोंदणी जिल्हा: मुंबई

उपनगर आणि मस्जिद रोड, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई येथे स्थित आहे. मालमत्तेचा तो सर्व भाग व विभाग सर्वेक्षण क्रमांक ४३६, हिसा क्रमांक १६ , सीटीएस क्रमांक १४९९ ते १५५० महसूल गाव कोळेकल्याण, वाकोला, तालुका- अंधेरी, एच-पश्चिम प्रभाग क्रमांक ७२४७ (२बी ) १०६१ चौरस यार्ड्स म्हणजेच ८८७.२ चौरस मीटर किंवा त्याभोवती असलेल्या ३१ संरचनेसह ''अम्मा'ज मेन्शन'' (पूर्वी हिर निवास म्हणून ओळखले जाणारे) विक्री बिलिंडग विंग ए मध्ये: ३०१ फूट विक्रीयोग्य क्षेत्र, २. नोंदणी जिल्हा: मुंबई उपनगर आणि मस्जिद रोड, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई येथे स्थित आहे.

मालमत्तेचा तो सर्व भाग व विभाग सर्वेक्षण क्रमांक ४३६, हिसा क्रमांक १६, सीटीएस क्रमांक १४९९ ते १५५० महसूल गाव कोळेकल्याण, वाकोला, तालुका- अंधेरी, एच-पश्चिम प्रभाग क्रमांक . ७२४७ (२बी ) १०६१ चौरस यार्डचे मोजमाप म्हणजेच ८८७.२ चौरस मीटर किंवा त्यावरील असलेल्या ३१ रचना ज्याला '' अम्मा'ज मेन्शन'' (पूर्वी हरि निवास म्हणून ओळखले जाई ) या नावाने ओळखले जाणारे "विक्री बिलिंडग विंग ए : ४०१ , २४८० चौरस फूट क्षेत्रफळ नोंदणी जिल्हा: मुंबई उपनगर आणि मस्जिद रोड, सांताऋूझ (पूर्व), मुंबई येथे स्थित आहे.

ठिकाण: सांताक्रूझ (पूर्व)

**POONAWALLA** 

HOUSING FINANCE

सार्वजनिक सूचना

याद्वारे नोटीस दिली जाते की, आमचा क्लायंट विष्णु कुमार पुरोहित s/o गेमराम परोहित कर्ज घेण्याचा इराटा ठेवत आहे आणि १८ मे, २०१६ रोजी कायमस्वरूपी पर्यायी निवासासाठी मूळ करार असलेली साखळी कागदपत्रे M/s. निओ बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सचे प्रतिनिधित्व श्री. नरेश के. मेहता आणि श्री. प्रमोद हसमुखलाल बटाविया ह्यांच्या मार्फत बनविण्यात आलेला मूळ दस्तावेज गहाळ झालेला आहे आणि शोधण्या योग्य नाही.

सदर करार सापडलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने

खाली स्वाक्षरी केलेल्या आणि वारसा, वाटा, विक्री, गहाण, कर्ज, भाडेपट्टे, धारणाधिकार, परवाना, भेटवस्तु याद्वारे सदर मालमत्तेवर कोणताही दावा किंवा हक असलेली कोणतीही व्यक्ती, बँक, वित्तीय संस्था कळवावी. ताबा किंवा भार कसाही असो किंवा अन्यथा किंवा वरील करारनामा याद्वारे अधोस्वाक्षरीदारास या नोटिसच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ७ दिवसांच्या आत त्यांच्या अशा कोणत्याही दाव्याची सर्व सहाय्यक दस्तऐवजांसह माहिती देण्यास सांगितले जाते जे अयशस्वी झाल्यास आमच्या क्लायंटच्या बाजूने कोणताही व्यवहार होईल अशा दाव्याचा आणि दाव्यांचा संदर्भाशिवाय पूर्ण केले जावे, जर अशा व्यक्तींपैकी कोणतीही व्यक्ती माफ केली जाईल आणि माझ्या ग्राहकांना बंधनकारक नसेल.

मालमत्ता आणि कागदपत्रांचे वर्णन मुंबई शहर १ दुय्यम निबंधक येथे भाडेकरार असलेल्या जागेच्या संदर्भात दस्तऐवज क्रमांक मुंबई-४३२८-२०१६ अंमलात जाणला आहे. पहिल्या मजल्यावरील परिसर क्रमांक ०६, ८१-८३, खेतवाडी मेन रोडचे जंक्शन आणि १ली पारशीवाडा लेन, मुंबई-४०० ००४ येथे भाडेकरू जागेच्या संदर्भात.

दिनांक २४/०६/२०२३ ठिकाणः मुंबई

सही/ कशान आर. सोळंकी पत्ताः स्वामी समर्थ दर्शन कक्ष क ४०१ चौथा मजला, दुसरा कुंभारवाडा, गिरगाव, मुंबई-४००००४

मोबाईल क्र. ९८९२५१३४८३

अधिकृत अधिकारी बँक ऑफ इंडिया

> (नियम ८(१) पहा) कब्जा सूचना

सर्व्हे क्र. ७९/१, घोरपडी, मुंढवा रोड, पुणे-४११०३६ ज्याअर्थी, निम्नस्वाक्षरीकर्ता यांनी **पुनावाला हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड** (याआधी मॅमा हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड नावे ज्ञात) वरील कॉर्पोरेट कार्यालय/ नोंदणीकृत कार्यालयचे प्राधिक अधिकारी म्हणून दि सिक्युरिटायक्षेशन औड रिकन्स्ट्रबगन ऑफ फायनाश्चियल असेट्स औड एन्फोसॅमेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोसॅमेंट) ॲक्ट, २००२ (यानंतर सद्र ॲक्ट असा उद्घेख) अन्वरं आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोसॅमेंट) रुल्स, २००२ चा नियम ३ सहवाचता सद्र ऑक्टचा कलम १३(१२) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून मागणी सुचना जारी करून खालील कर्जदारांन

पूनावाला हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड

(पूर्वी मॅग्मा हाऊसिंग फायनान्स लि. अशी ज्ञात)

नोंदणीकृत कार्यालयः ६०२, ६ वा मजला, झिरो वन आयटी पार्क

सुवनेमध्ये नमूर केलेली रक्कम सदरह सुवना प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत चुकती करण्यास सांगितले होते. सदरह कर्बदारांनी सदरह रक्कम चुकती करण्यामध्ये कस्स केलेली आहे स्रण्या कर्वेदरा आणि सर्वसाधाण जनतेय याद्वारे सूचना देण्यात येते की, निम्मस्वाक्षरीकर्त्यांनी त्याला/तिला प्रदान केलेल्य शत्तीचा वारप करून सदरह अधिनियमाचे कतम १५(अ) अंतर्गत सहयाचता सदरह नियमावर्तीचा नियम ८ जन्यये २० चून २०२३ याखाली वर्णन केलेल्या मिळकर्तांचा कब्जा घेतलेला आहे. विशेषतः कर्बदार आणि सर्वसामान्य जनता यांना याद्वारे सावधान करण्यात येते की, त्यांनी खालील नमूद मिळकर्तीच्या देवयेवीचा व्यवहार करू नये आणि सदरह मिळकर्तीचरील कोणताही देवयेवीचा व्यवहार हा **पूनावाला हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड** (याआधी मँग्मा हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड नावे ज्ञात) च्या रक्कम आणि त्यावरील व्याजाकरिता भाराच्या अधीन राहील. तारण मत्ता विमोचनासाठी उपलब्ध वेळेच्या संदर्भात अधिनयमाच्या कलम १३ च्या पोटकलम (८) च्या तरतुर्दीकडे कर्जदारांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. कब्जामधील मिळकतीचे वर्णन खालील

अनु.	कर्जदारांचे नाव	मिळकतीचे वर्णन	कब्जा	संविधिक	मागणी सूचनेतील रक्कम (रु.)
क्र.			घेतलेल्याची तारिख	मागणी सूचनेची तारीख	
۶.	हरिशंकर माताशरन	गाव टेंभोडे, तालुका आणि जिल्हा पालघर येथे स्थित असलेले आणि वसलेले	२०.०६.२०२३	०९/११/२०२२	कर्जक.
1	विश्वकर्मा	जमीन धारक सर्व्हें क्र. ६/३/१, मोजमापित ०-११:८ एचआरपी एकूण			एचएफ/०५४२/एच/२०/१०००४८
1	पूजा विश्वकर्मा	मोजमापित ०२३.६ एचआरपी, सर्व्हे क्र. ६/२, मोजमापित ०-०३.३			रु. १८५२९९०.८६/- (रुपये अठरा
1	दिनेश हरिशंकर	एचआरपी सर्व्हें क्र. ५/३, मोजमापित ०-४०.७३ एचआरपी, एकूण			लाख बावन्न हजार नऊशे नव्वद आणि पैसे
1	विश्वकर्मा	मोजमापित ०-६०.६० एचआरपी जे २३३७.६० चौ.मीटर्स वर बांधलेले			सह्याऐंशी पैसे) ०९.११.२०२२ रोजीप्रमाणे
1		४नेस्ट लिफ फेझ १ नावे ज्ञात इमारतीमध्ये बी विंग, ४ था मजल्यावर फ्लॅट			देयसह वसुलीपर्यंत व्याज @९.३९ दरसाल
1		क्र. ४०५, मोजमापित ३३५ चौ.फू. म्हणजेच ३११२ चौ.मीटर्स आणि			
1		बाल्क्नी क्षेत्र मोजमापित ६० चौ.फू. ५.५७ एसजी मीटर्स			

ठिकाण: मुंबई दिनांक: २४.०६.२०२३

सही/- प्राधिकृत अधिका पुनावाला हाऊसिंग फायनान्स लिमिटे (याआधी मॅग्मा हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड नावे ज्ञात







मध्यवर्ती कार्यालय: युनियन बँक भवन, २३९, विधान भवन मार्ग, निरमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१.

वेबसाईट: www.unionbankofindia.co.in, ईमेल: investorservices@unionbankofindia.co.in

व्हिसी/ओएव्हीएम मार्फत घेण्यात येणाऱ्या २१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

प्रिय भागधारक.

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, युनियन बँक ऑफ इंडिया (''**बँक'**') च्या समभागधारकांची २**१वी (एकवीसवी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा** व्हिडिओ कॉन्फरसिंग (व्हिसी) किंवा अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (ओएव्हिएम) सुविधेमार्फत मध्यवर्ती कार्यालय, युनियन बँक ऑफ इंडिया, मुंबई (सभेचे मानीव ठिकाण) येथे **शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०२३ रोजी स. ११.०० वा. (भाप्रवे)** घेण्यात येणार आहे. निगम व्यवहार मंत्रालयाद्वारे जारी दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२ रोजीचे जनरल सर्क्युलर क्र. १०/२०२२ (''एमसीए सर्क्युलर्स'') आणि सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारे जारी दिनांक ५ डिसेंबर, २०२३ रोजीचे सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ (''सेबी सक्युलर्स'') ला अनुसरुन आणि अधिनियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिकायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ (''लिस्टिंग रेग्युलेशन्स<sup>''</sup>), वित्त मंत्रालय, भारत सरकारच्या दिनांक १० जुलै, २०२० रोजीचा कम्युनिकेशन क्र. ७/४१/२०२०-बीओए च्या अनुपालनात बँकेची एजीएम व्हिसी/ओएव्हिएम मार्फत घेण्यात येणार आहे, ज्यासाठी एकांच ठिकाणी सभासदांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक नाही. त्यानुसार रेग्युलेशन्स, २०१५ आणि वरील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रयोज्य तरतदींच्या अनुपालनात बँकेची एजीएम व्हिसी/ओएव्हिएम मार्फत घेण्यात येणार आहे. भागधारकांना पुढे कळविण्यात येते की:

- एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवालासह ३१ मार्च, २०२३ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वित्तीय विवरणपत्र एमसीए सर्क्युलर्स आणि सेबी सर्क्यूलर्स नुसार बँकेकडे किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस (डीपी) कडे ईमेल पत्ते नोंदविलेल्या सर्व भागधारकांना फक्त ईमेल द्वारे पाठविण्यात येतील. भागधारक फक्त व्हिसी/ओएव्हिएम मार्फत एजीएमला हजर आणि सहभागी होवु शकतात, व्हिसी/ओएव्हिएम मार्फत सहभागी होणाऱ्या भागधारकांना गणपुर्ती ठरविण्यासाठी मोजण्यात येईल.
- एजीएमला हजर राहण्याची माहिती आणि दरस्थ ई-मतदानाने सहभागी होणे किंवा एजीएम दरम्यान ई-मतदान पध्दतीमार्फत मतदान करण्याची पध्टत एजीएमच्या तपशिलवार सचनेत देण्यात येईल
- ii. वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना बँकेची वेबसाईट म्हणजेच www.unionbankofindia.co.in आणि बीएसईची वेबसाईट www.bseindia.com आणि एनएससीची www.nseindia.com वर सुध्दा होस्ट करण्यात येईल.
- iv. तम्ही बँक किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस कडे तमचे ईमेल पत्ते नोंदविलेले नसतील आणि/किंवा लाभांश प्राप्त करण्यासाठी तमचे बँक अकाऊंट मॅनडेट अद्ययावत केलेले नसतील तर कृपया तुमचा ईमेल आयडी/बँक खाते नोंदविण्यासाठी खालील माहितीचा अवलंब

भागधारणा 

मिळविण्यासाठी

डिमॅट धारणा

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २१.०६.२०२३

प्रत्यक्ष

खालील पत्त्यावरुन दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीचे सेबी सर्क्युलर क्र. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR2021/6055 दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२१ ला अनुसरुन फॉर्म आयएसआर १ विहित **फॉर्म आययएसआर १** मिळविण्यासाठी क्युआर कोड:

केफिन टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड. युनिट: युनियन बँक ऑफ इंडिया, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ आणि ३२, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा,

हैदराबाद- ५०००३१ फॉर्म आयएसआर १

विनंती विचारात घेतली जाणार नाही.

ईमेल: einward.ris@kfintech.com, टोल फ्री : १८०० ३०९ ४००१ वेबसाईट: www.kfintech.com

तुम्ही einward.ris@kfintech.com कडे विनंती पत्राची स्कॅन्ड कॉपी सुध्दा पाठवु शकता. सदर फॉर्म बँकेची वेबासाईट www.unionbankofindia.co.in/english/important-annoucement-tophysical-shareholders.aspx वर उपलब्ध आहे कृपया तुमचे डिमॅट खाते असलेल्या तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् (डीपी) ना संपर्क करा आणि तुमच्या

डीपींच्या सल्ल्यानुसार तुमचा ईमेल आयडी नोंदवावा. ज्या भागधारकांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत ते वेबलिंक-https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilerg/ mobileemailreg.aspx मध्ये त्यांचा ईमेल आयडी आणि मोबाईल क्र. नोंदणी करुन एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात.

- व्हिसी/ओएव्हिएम मार्फत एजीएमला सहभागी होण्याची तपशिलवार प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत सध्दा दिलेली आहे. बँक ज्यांनी त्यांचे बँक अकाऊंट मॅनडेट नोंदविलेले/अद्ययावत केलेले नाहीत त्यांना यथावकाश लाभांश वॉरंट डिव्हिडंट (काही लाभांशाचे प्रदान हे सुधारणेनुसार इन्कम टॅक्स ॲक्ट, १९६१ (ॲक्ट) नुसार प्रयोज्य टीडीएस (काही असल्यास) च्या अधीन राहील. काही
- असल्यास टीडीएस कापणे हे ॲक्टच्या प्रयोज्य तस्तुदींनुसार बँकेचे स्वीकारलेल्या आणि सादर केलेली आवश्यक कागदपत्रे आणि भागधारकांच्या निवासी स्थितीवर अवलंबन राहील बँकेला आरटीए कडे उपलब्ध नोंदीवर आधारित टीडीएस कापणे बंधनकारक आहे आणि त्यानंतर टीडीएस परत करण्यासाठी कोणतीही
- त्यामुळे भागधारकांना htpps://ris.kfinetech.com/form15 येथे आमचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, मे. केफिन टेक्नॉलॉजिस लि. कडे आवश्यक दस्तावेज सादर करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
- बँकेने ई-मतदान आणि एजीएम मध्ये घोषित झाल्यास वि.व. २०२२-२३ च्या लाभांशासाठी सभासदांची हक्कदारी ठरविण्यासाठी कट-आफ तारीख म्हणुन शुक्रवार, २८ जुलै, २०२३ निश्चित केली आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे

युनियन बँक ऑफ इंडिया करिता सही/-एस. के. दाश



आयडीबीआय बँक लिमिटेड

दोस्ती पिनॅकल, जीएफ, प्लॉट क्र. ई-७, रोड क्र. २२, वागळे . इंडस्ट्रियल इस्टेट, एमआयडीसी, ठाणे (प.), ठाणे पिन: ४००६०४.

कब्जा सूचना (स्थावर मिळकतीकरीता)

(नियम ८(१)

निम्नस्वाक्षरीकारांनी आयडीबीआय बँक लिमिटेड चे प्राधिकत अधिकारी या नात्याने सिक्यरिटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेटस् ॲन्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ (५४ सन २००२) आणि कलम १३(१२) महवाचता सिक्यरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये पाप्त अधिकारांचा वापर करून ाणी सूचना जारी करून कर्जदार यांस सूचनेतील एकूण नमूद रक्कम या रकमेची परतफेड सदर सूचना प्राप्तीच्या ६० दिवसांत करण्यास सांगितले होते. रकमेची परतफेड करण्यास कर्जदार असमर्थ ठरल्याने. कर्जदार आणि सर्वसामान्य . जनतेस याद्वारे सूचना देण्यात येते की, निम्नस्वाक्षरीकारांनी खाली वर्णन करण्यात आलेल्या मिळकतीचा ताबा त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून सिक्यरिटी इंटरेस्ट (इन्फोर्समेंट) रूल २००२ च्या रूल ८ सहवाचता ॲक्टचे कलम १३ चे उप-कलम (४) अन्वये घेतला आहे. तारण मत्तांच्या विमोचनांकरिता उपलब्ध वेळेत ॲक्टचे कलम १३ चे उप-कलम (८) च्या तरतदी नसार कर्जदारांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. विशेषत: कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेस यादारे इशारा देण्यात येतो की, सदर मिळकतीशी कोणताही व्यवहार करू नये आणि सदर मिळकतीशी करण्यात आलेल कोणताही व्यवहार हा आयडीबीआय बँक लिमिटेड च्या खालील नमुद रक्कम आणि त्यावरील व्याजाच्या भाराअधीन

कर्जदाराचे नाव १३(२) मागणी सूचनेमध्ये सांकेतिक

	14(1)		(11 -111 (1 -11	11
	सूचनेची तारीख	दावा केलेली रक्कम	कब्जाची	
		(転.)	तारीख	
अभिषेक ज्योतिरंजन मिश्रा आणि ज्योतिरंजन भागीरथी मिश्रा	οξ-ογ-₹ο₹₹	१९,८९,४०४/-	२२.०६.२०२३	बी ३/३०१ सप्तर्षी सीएचएस लि, आनंद नगर मानपाडा रोड, पांडुरंग वाडी, हरी मंगल कार्यालय जवळ, डोंबिवली पूर्व, ठाणे, महाराष्ट्र ४२१ २०१.
महम्मद सलीम मलिक, कलीम नायरन मलिक आणि रोशनी मोहम्मद सलीम	08-08-9093	५६,९७,०४४/-	२२.०६.२०२३	फ्लॅट क्र. ३, तळमजला, एम विंग, कासा एलिट एलएसजी पालवा खोणी, कल्याण शिळ रोड, डोंबिवली (पू.), महाराष्ट्र – ४२१ २०४.
राजा अरविंद नायर आणि शुभांगी गोविंद नायर	२३-०३-२०२०	२७,१९,४५९/-	२२.०६.२०२३	फ्लॅट क्र.४०४-सी ४था मजला, साई प्रेमा बिल्डिंग, रेसिडेन्सी नांदिवली, लोढा हेवन, डोंबिवली (पू) महाराष्ट्र ४०१ ३०१.
रोहित ज्जेलर्स अमळनेरकर, (मालक-विकास घनश्याम देवपूरकर)	οξ-ογ-₹ο₹₹	१६,६१,५५१/-	२२.०६.२०२३	दुकान क्र. ११, तळमजला, श्री कैलास दर्शन सीएचएसएल गाव – ठाकुर्ली सर्ल्हे क्र. २६९, हिस्सा क्र. ३/४ भाग झोन क्र. ५/२४, डोंबिवली, पश्चिम, महाराष्ट्र ४२१२०२.
संतोष दासू बोकेफोडे आणि माधवी संतोष बोकेफोडे	o६-o४-२o२३	१,१४,९५,३५७/-	२२.०६.२०२३	फ्लंट क्र. ९०४, बी ९ वा मजला श्रीनाथ दर्शन, भांडुप पोलीस स्टेशन समोर, भांडुप पश्चिम महाराष्ट्र ४०००७८.
श्रीकांत तुकाराम म्हात्रे आणि सुजाता श्रीकांत म्हात्रे	08-08-2023	४,००,५८२/-	२२.०६.२०२३	फ्लॅट क्र. ३०४, बी-विंग, ओम वैभव सीएचएस लि. राम नगर, एस.के. पाटील शाळेजवळ, डोंबिवली (पू) महाराष्ट्र ४०१ ३०१.
ठिकाण: ठाणे सही/-				
दिनांक: २३-०६-२०२३ प्राधिकत अधिकारी, आयडीबीआय बँक लि.				

वसर्ड विकास सहकारी बँक लि वसर्ड (शेडयल्ड बँक)

चिमाजी आप्पा मैदानासमोर, वसर्ड गाव एस .टी .स्टॅंड जवळ, वसर्ड रोड (प), पालघर-४०१२०१ दुरध्वनी कं . ८५९१९८७९७४ email: sandeep.jadhav@vasaivikasbank.co.in

#### स्थावर मालमत्तेच्या लिलावासाठी जाहीर सूचना

सिक्युरीटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शीयल ॲसेटस् ॲन्ड एनर्फोसमेंन्ट ऑफ सिक्युरीटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ व सिक्युरीटी इंटरेस्ट (एनर्फोसमेंन्ट ) रूल्स २००२ या कायदयाअंर्तगत, स्थावर ।।लमत्तेच्या विकीसाठी लिलाव विक्रीसचना .

याद्यारे सर्वसाधारणपणे जनतेला आणि विशेषतः कर्जदार आणि जामिनदारांना सुचित करण्यात येत आहे की खाली वर्णन केलेली स्थावर मालमत्ता सुरक्षित कर्जदाराकडे गहाण / शुल्क आकारली आहे, ज्याचा प्रत्यक्ष ताबा हा वॅकेच्या अधिकृत अधिका-याने घेतला आहे . वसई विकास सहकारी वॅक चे अधिकारी पदर स्थावर मालमत्तेची लिलाव विक्री "जसे आहे तेथे आहे" आणि "जसे आहे तसे आहे" आणि "जे

- जाहिर लिलावाचा दिनांक व वेळ : दि .२६ .०७ .२०२३ रोजी संध्याकाळी ४ .०० वाजता .
- . जाहिर लिलाव ठिकाण : मुख्य कार्यालय वसई विकास सहकारी वॅक लि . , चिमाजी आप्पा मैदानासमोर, वसई गाव एस . टी . स्टॅंड जवळ्, वसई रोड (प), पालघर-४०१२०१

कर्जदार आणि जामिनदारांची नावे	गहाण ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन	३१.०५.२०२३ पर्यत ची एकूण थकबाकी रक्कम (with future interest)	वाजवी रक्कम	अनामत रक्कम	तपासणीची तारीख आणि वेळ
१ - श्री -सिलम उमर मेमन २ - सौ रेऽमा सिलम मेमन ३ - श्री -मोहीद्यीन युसूफ शेख ४ - श्री -जगन्नाथ रघूनाथ जाधव	शॉप नं .१, तळ मजला, जुन्या मच्छी मार्केट जवळ, वसई (प)	(OD) १,२५,३८,६६७/-	₹0,00,000/-	१,००,००० /-	३०.०६.२०२३ ते २२.०७.२०२३ (स.१०.०० ते दु.२.०० वाजे पर्यत)

।।लमत्तेचे लिलावासंदर्भातील अटी व शर्ती हया बोलीपत्रासोवत सदरबोलीपत्रकाच्या अर्जाची फी) रोख रक्कम रू २१०००/- (विना परतावा) ही "वसई विकास सहकारी वॅक लि" च्या नावे डीडी/ पे ऑर्डर जमा) करून दि . ३० जुन ते २२ जुलै २०२३ दुपारी ४ . ०० वाजेपर्यंत वर नमुद केलेल्या वॅकेच्या पत्त्यावर प्राप्त होऊ

लिलाव केलेल्या मालमत्तेच्या संदर्भातील मुद्रांक शुल्क / अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क / हस्तांतरण शुल्क इ . तसेच वैधानिक व गैर वैधानिक देय, कर, दर, मुल्यांकन, वसई विरार महानगरपालिकेचे तसेच सरकारी किंवा निम सरकारी कर, जमिनमालकाच्या काही थकवाकी, देणी, सोसायटीतील असलेल्या काही थकवाकी कर, दर देण्याकरीता किंवा भरण्याकरीता खरेदिदार हे वंधनकारक असतील . तसेच इतर काही खर्च व वैधानिक देय हेण्याकरीता किंवा भरण्याकरीता ची सर्वस्वी जवावदारी ही खरेदिदार यांची राहील . वर नमद केलेल्या सचनांची तसेच नियमांची योग्य ती पुर्तता झाल्यानंतरच बॅकेकडून लिलावकेलेल्या मालमत्तेचा खुला व प्रत्त्यक्ष ताबा ह योग्य त्या खरेदिदारास देण्यात येईल .

कोणतेही कारण न दर्शविता, निविदा किंवा बोली स्विकारणे किंवा नाकारणे किंवा लिलाव स्थगित / निंलवित / रदद् करण्याचा अधिकार, तसेच कोणत्याही पुर्व सुचनेशिवाय, विक्रीचे कोणतेही नियम व अटी मध्ये बदल करण्याचा अधिकार, वॅकेकडे राखुन ठेवण्यात आला आहे .

SARAFESI ACT 2002 अंतर्गत ३० दिवसांची विकीसुचना

कर्जदार /जामिनदार आणि इतर सर्व संबंधित पक्षांना याद्दारे लिलावाच्यातारखेपुर्वी कर्ज खाते बंद करण्याची ताकीद देंण्यात आली आहे, तसे न केल्यास मालमत्तेचा लिलाव केला जाईल आणि शिल्लक असल्यास ते तुमच्याकडुन व्याज आणि खर्चासह वसुल केले जाईल . अधिकृत अधिकारी

दिनांक:- २३/०६/२०२३

स्थळ:- वसर्ड

वसई विकास सहकारी बॅक ली .



मालाड पश्चिम, मुंबई ४०००६४. स्थावर मिळकतीच्या विक्रीसाठी विक्री सूचना (सिक्यरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स २००२ चा नियम ८(६) सहवाचता नियम ९(१) अन्वये) सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेटस् ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट

ॲक्ट, २००२ सहवाचता सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ चा नियम ८ (६) आणि नियम९(१) च्या परंतुकाच्या तरतुदीअन्वये स्थावर मत्तांच्या विक्रीकरिता ई-लिलाव विकी सचना कर्ज खाते क्र. ६१९९४९६ श्री. शशिकांत एकनाथ अहिरे

याद्वारे सर्वसाधारण जनता आणि विशेषतः खालील कर्जदार/सह-कर्जदार यांना सूचना देण्यात येते की, खालील वर्णिलेली स्थावर मिळकत ही टाटा कॅपिटल फायनास्थियल सर्व्हिसेस लि. (तारण धनको) **टीसीएफएसएल)** कडे गहाण आहे, जिंचा कब्जा जिंचा टाटा कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. (तारण धनको) च्या प्रार्धिकृत अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे, ती ''जसे आहे जेथे आहे तत्त्वाने'' आणि ''जे आहे जसे आहे'' आणि ''जे काही आहे तेथे आहे'' आणि विना मदत तत्त्वाने १८ जुलै, २०२३ रोजी विकण्यात येणार आहे.

ज्यांअर्थी, तारण मत्तेची विक्री तारण कर्जाच्या वसुलीकरिता केली जात आहे आणि ज्याअर्थी कर्जदार/सह-कर्जदार म्हणजेच १ए) श्री. शशिकांत एकनाथ अहिरे, १बी) सॅप इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा त्यांचे प्रोप्रायटर श्री शशिकांत एकनाथ अहिरे, १सी) प्राजक्ता एस अहिरे, १ए) ते १सी) ज्यांचा पत्ता: फ्लॅट क्र. ५०४, साई सुमन बी विंग, रिलायन्स प्रेश जवळ, टागोर नगर, विक्रोळी पू, मुंबई ४०००८३, २ए) शशिकांत एकनाथ अहिरे, २बी) सॅप इलेक्टॉनिक्स दारा त्यांचे प्रोप्रायटर श्री. शशिकांत एकनाथ अहिरे. २सी) प्राजक्ता एस अहिरे. २ए ते २सी) ज्यांचा पत्ता: फ्लॅट क्र. ५०३, ५ वा मजला, बी वुंग, साई सुमन सीएचएसएल, विक्रोळी पू, मुंबई ४०००८३ यांचेकडून २७.०२.२०२० रोजीस रु. ६८,५५,७२८.८६/ – (रुपये अडुसष्ट लाख पंच्यावह **हजार सातशे अट्टावीस आणि पैसे सह्याऐंशी फक्त)** ची रक्कम थकबाकी येणे होती.

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कोणत्याही प्रकारे पुढे ढकलले नाही/विक्री खंडित केली नाही तर सदर मिळकत टीसीएफएसएल द्वारे तिचे शाखा <mark>कार्यालय क्र. ९०२–९०६ क्वाँटम टॉवर, चिंचोळी, एस.व्ही. रोडलगत</mark>, मालाड पश्चिम, मुंबई–४०० ०६४. येथे सदर १८ जुलै २०२३ रोजी दु. २ वा. विकण्यात येईल. इअर डिमांड ड्राफ्टसह मिळकतीच्या खरेदीसाठी मोहोरबंद ई–लिलाव बोली सदर १७ जुलै, २०२३ रोजी सायं. ५ वा. पर्यंत टाटा कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. च्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांद्वारे स्वीकारण्यात तारण प्रचांचे टार्ग कब्जाचा प्रकार गावीत

सारण मसाय प्रणम	काल्याचा प्रकार	राखाप	इलारा रजकम
	आन्वयिक/	किंमत (रु.)	(₹.)
	प्रत्यक्ष		
मुंबई उपनगर जिल्हा, विक्रोळी पूर्व,	प्रत्यक्ष	₹.	₹.
मुंबई ४०००८३, महाराष्ट्रचा नोंदणीकृत		८७,४१,०००/-	८,७४,१००/-
जिल्हा आणि उपजिल्हामध्ये विक्रोळी		(रुपये सत्त्याऐंशी	(रुपये नऊ लाख
(पू), गाव हरिआली, ता. कुर्ला येथे साई		लाख एक्केचाळीस	चौऱ्याहत्तर हजार
सुमन को-ऑप हाऊ सोसायटी लि. चा		हजार फक्त)	एकशे फक्त)
बी विंग आणि ५ व्या मजल्यावर फ्लॅट			
क्र. ५०३, चटई क्षेत्र समाविष्ट संपूर्ण			
बाल्कनी काही असल्यास मोजमापित			
४२४ चौरस फूट (३९.४० चौ.मीटर्स)			
समाविष्ट यथायोग्य कॉमन क्षेत्रचे सर्व ते			

विक्रीकरिता ठेवण्यात येणाऱ्या मिळकतीचे वर्णन परिशिष्टामध्ये आहे. जर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे देय रक्कम त्याज आणि परिव्यय (विक्रीच्या किंमतीसमवेत) प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे भरणा केली किंवा त्यांच्य खात्रीसाठी अशा तारण कर्जाची रक्कम. व्याज आणि परिव्यय प्रदान केले आहे याचा परावा दिल्यास विक्री थांबविली सुध्दा जाईल. विक्रीच्या ठिकाणी सर्वसाधारण जनतेला व्यक्तिश: त्यांच्या निविदा सादर करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात येत आहे. ह्या विक्रीशी संबंधित कर्तव्यावर असलेला कोणताही अधिकारी वा इतर व्यक्ती या विक्री संदर्भात मिळकत विक्रीमध्ये संपादन वा संपादन करण्याचा प्रयत्न करण्याकरिता थेट वा अप्रत्यक्ष सहभाग घेऊ शकणार नाही, विक्री सरफैसी ॲक्ट. २००२ मधील विहित **नियम/अटींच्या** अधीन असेल. ई-लिलाव प्रत्येकी १० मिनिटांच्या अमर्याद विस्तारासह **१८ जुलै, २०२३** रोजी दु. **२.०० वा. ते ३.०० वा**. इरम्यान पोर्टल <u>https://disposalhub.com</u> मार्फत करण्यात येईल. मिळकतीच्या खरेदीसाठी सादर केलेल्या सर्व बोली या **मुंबई येथे देय ''टाटा कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि.''** च्या नावे डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरुपात इसारा रकमेसह परिपुर्ण असाव्यात. मिळकतीचे निरिक्षिण **०३ जुलै, २०२३** रोजी **स. ११** .. **ते सायं. ५** दरम्यान करता येईल.

<mark>टीप:</mark> इच्छुक बोलीदार प्रा<mark>धिकृत अधिकारी श्री. अनुरोध ज्युलियस / श्री. हरंगद सिंग भोगल, ईमेल</mark> आयडी-Anurodh.Julius@tatacapital.com/ Harangad.Bhogal@tatacapital.com आणि मोबाईल नं. - +९१-८६५७४३९००८/ ८२९१९०१८३५. यांना संपर्क करु शकतात. विक्रीच्या तपशिलवार अटी आणि शर्तीसाठी कृपया तारण धनकोंची वेबसाईट म्हणजेच

https://bit.ly/3NJiYda मध्ये दिलेली लिंक पाहावी केंवा प्राधिकृत अधिकारी किंवा सेवा पुरवठादार-नेक्सझेन सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना संपर्क करावा. सही/- (प्राधिकृत अधिकारी) ठिकाण: मुंबई

टाटा कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि

कंपनी सचिव